



July 27, 2021

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,Bandra (East), Mumbai – 400 051

**NSE Symbol:** APOLLOPIPE

Department of Corporate Services/Listing **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

SCRIP Code: 531761

Dear Sir/Mam,

### Sub: Copy of Newspaper Cuttings of Financial Results

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper cuttings of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021, as approved by the Board of Directors in their Meeting held on July 26, 2021.

Submitted for your kind information and necessary records.

Yours Truly

For Apollo Pipes Limited

(Ankit Sharma)
Company Secretary

Encl.: As above

## Goel Agrigreen Fields Private Limited -(In Liquidation) Liquidator: Mr. Amresh Shukla **ad Office:** Khasara No. 3, Kesla Village, Itarsi, oshangabad-461111, Madhya Pradesh, INDIA onfields@gmail.com | **Ph** :+91 9425007441 (Mr. Amresh Shukla nail: cirp.goelagrig

**E-Auction** Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 12th August, 2021 at 03.00 PM to 05.00 PM (With unlimited extension of 5 minutes each)

### COMPANY AS A WHOLE & IN A SLUMP SALE

Sale of Assets and Properties owned by Goel Agrigreen Fields Private Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad vide order dated 18th August, 2020. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Α				
В				
С				
D				
Mode of Sale In a Slump Sale				

#### Terms and Condition of the E-auction are as under

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "NON RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries and inspect the assets at their own expenses and satisfy themselves.

The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration & Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net, For E-Auction details, contact Mr. Praveen Kumar Thevar at 9722778828,  $prave en. the var@auction tiger.net/support@auction tiger.net\ Or\ Liquidator.\ Interested$ bidders are requested to visit the abovementioned websites and submit a bid.

Amresh Shukla Liquidator of Goel Agrigreen Fields Private Limited (in Liquidation)

IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00120/2017-18/10255

Address: F-05, Jaideep Complex, 112, Zone-II, M.P. Nagar, BHOPAL- 462011

Email: cirp.goelagrigreenfields@gmail.com Contact No.: +91 9425007441 (Mr. Amresh Shukla) Date: 27.07.2021 Place: Bhopal

**BWR** 

**BHARAT WIRE ROPES LIMITED** 

Corporate Identity Number (CIN): L27200MH1986PLC040468
Regd. Office: Plot No. 4 MIDC, Challsgaon, Industrial Area, Village-Khadki, Taluka-Challsgaon,

District-Jalgaon-424 101, Maharashtra, India Tel.: +91-02589-211000.

Corporate Office add.: 701 A Wing, Trade World Building, Kamala Mills Compound, Senapati Bapa

Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400 013, Maharashtra, India Tel.: +91-22-66824600.

Fax: +91-22-66824666 - Website: www. bharatwireropes.com • E-mail: investors@bharatwireropes.com

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of the Member

of Bharat Wire Ropes Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday August 23, 2021 at 11:00 A.M. through Video conferencing ('VC')/Other Audio Visua

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the 35th Annual General Meeting

compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and

the rules made thereunder, read with General Circulars No. 14/2020 dated April 08 2020, No. 17/2020, dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020 and

02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MC/Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12

2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), (collectively referred to a

The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21, inter-

alia, containing Board's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statemen

will be sent only through electronic mode to all those members, whose have registered

their email address with the Company/ Depository Participants in accordance with the aforesaid circulars. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM

facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation is the Remote e-voting or casting vote through E-voting during AGM would be provided.

in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shal be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The

Notice of AGM and the Annual Report 2020-21 will also be made available on the website of the Company at <u>www.bharatwireropes.com</u>, BSE Limited a <u>www.bseindia.com</u> and the National Stock Exchange of India Limited a

www.nseindia.com. Necessary arrangements have been made by the Company with Company's Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited

("KFinTech / RTA") at https://evoting.kfintech.com to facilitate Remote e-voting and

Members are requested to register their email ID's with KFin Tech if shares are held b them in physical form or with their respective DPs if shares are held by them in dema form. Members who have not registered their email IDs may send an email request to

einward.ris@kfintech.com along with the following documents for obtaining Annua

Report, AGM Notice with e-voting instructions and login credentials: (a) In cass shares are held in physical mode, please provide folio no., name, scanned copy of PAN

Card and any address proof; (b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-Client ID (8digit DPID +8 digit client ID or 16 digit beneficiary ID), name

If a Member is already registered with the Company's RTA for Remote e-voting an

e-voting during AGM, then existing User ID and password can be used for casting vote.

The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting and E-voting during the AGM and attending the AGM through

In case of any queries pertaining to e-voting, please visit 'Help & FAO's section

available at KFinTech's website https://evoting.kfintech.com Alternatively shareholders may contact Mr. Suresh Babu D., Deputy Manager – Corporate Registry

KFin Technologies Private Limited, Address: Selenium Tower B, Plot number 31 &

32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032, Phone No.040-67161517, Toll free No: + 1800 3454 00

ageter or conv. of consolidated account statement, se

'Circulars') without the physical presence of the Members at a common venue.

('AGM/the Meeting') of the Members of Bharat Wire Ropes Limited ('the Compan' will be held through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') i

Means ('OAVM'), to transact the businesses set out in the Notice of AGM.

**Public Notice - 35th Annual General Meeting** 



## **ROOTS MULTI CLEAN LTD**

CIN: U36999TZ1992PLC003662 Registered office:R K G Industrial Estate. Ganapathy, Coimbatore - 641006

Dear Shareholders,

Sub: 1. Reminder to claim the dividends and shares remaining unpaid/unclaimed Transfer of unclaimed equity shares of the company to the Investor Educational Protection Fund (IEPF) Account.

NOTICE

n accordance with the Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, ransfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India effective from September 2016, all the shares in respect of which the vidend has not been claimed / paid for seven consecutive years or more are liable to be

ransferred to the IEPF account. The shareholders are requested to note that all shares in respect of which the dividend has not been claimed / paid for seven consecutive years or more and relevant shares upto 2012-2013 have already been transferred by the Company in the name of IEPF account as

The shareholders are requested to note that who have not claimed their dividends for seven consecutive years or more from 2013-2014, their relevant shares are now liable to be transferred to the IEPF account as per the said rules.

Please note that the due date for claiming dividend for financial year 2013-2014 is 31.10.2021. All concerned shareholders are requested to make an application to the Company or Company's Registrar and Transfer Agent preferably by 01.10.2021 with a request for claiming unclaimed dividend for the Financial Year 2013-2014 and onwards to enable processing of claims before the due date.

The statement containing the details name, address, folio number / demat account and number of shares liable to be transferred to IEPF account is made available in the company's website www.rootsmulticlean.com for necessary action by the shareholders. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose share are liable to be transferred to IEPF account, may note that the company would be issuing duplicate share certificate in lieu of original share certificate held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF account as per the rules and upon such issue, the original certificate which are registered in the name will stand automatically cancelled and be deemed nor

negotiable. In case, the company does not receive any valid communication from the concerned shareholders on or before the due date, the Company shall transfer Equity shares to the IEPF account as per the rules without any further notice to the shareholders.

The shareholders may note that they can claim back both the unclaimed dividend and the shares including all benefits accruing on such shares, if any by making separate application to the IEPF Authority, in the prescribed Form IEPF-5, as stipulated under the said Rules and the same is available at IEPF website i.e., www.iepf.gov.in

Please feel free to contact the Company/Company's Registrar and Transfer Agent, in case you have any gueries at their following address/email/ telephone number

Alembic

**Particulars** 

Total Income from Operations

Exceptional and/ or

Extraordinary items

Extraordinary items)

Extraordinary items)

**Equity Share Capital** 

the period

Expenses

Notes:

(after Exceptional and/ or

(after Exceptional and/ or

Net Profit for the period (before Tax

Net Profit for the period before tax

Net Profit for the period after tax

Total Comprehensive Income for

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Earning Per Share (Face Value of

Balance Sheet of previous year

Rs. 2/- each) Basic & Diluted Research and Development

Standalone details

Income from Operations

Research and Development

Profit Before Tax

Profit After Tax

Expenses

Place: Vadodara

Date: 26th July, 2021

Contact details of the Company Roots Multi Clean Limited CIN: U36999TZ1992PLC003662 R. K. G. Industrial Estate. Ganapathy, Coimbatore - 641 006 Phone: +91 422 4330330 Fax: +91 422 2332107 E-mail: gbala@roots.co.in Web: www.rootsmulticlean.com

Place: Coimbatore

Date: 27.07.2021

Contact details of the Registrar and Transfer Agent S K D C Consultants Limited, CIN: U74140TZ1998PLC008301 Surva 35. Mayflower Avenue. Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, Ph: +91 422 4958995, 2539835/ 836 Fax: +91 422 2539837 : info@skdc-consultants.com Web : www.skdc-consultants.com

> G. BALASUBRAMANIAM Company Secretary Email ID: gbala@roots.co.ir Mobile: 8220013292

> > **ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED**

(₹ in Crs. except per share data

Year Ended

31.03.2021

Audited

5,393.13

1.368.08

1.368.08

1,178.11

1,142.81

39.31

60.81

670.00

Year Ended

31.03.2021

Audited

5.051.44

1,416.60

1,175.39

631.01

Pranav Amir

**Managing Director** 

5.088.30

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara 390 003

Website: www.alembicpharmaceuticals.com

Quarter Ended

30.06.2020

Unaudited

1,341.32

359.50

359.50

301.46

287.46

37.70

15.99

142.61

30.06.2020

Unaudited

1.258.43

381.57

318.64

128.46

For Alembic Pharmaceuticals Limited

CIN: L24230GJ2010PLC061123

Email: apl.investors@alembic.co.in

Tel: +91 265 2280550

**Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for** 

the guarter ended 30th June, 2021.

Quarter Ended

30.06.2021

Unaudited

1,326.03

182.55

182.55

164.52

155.61

39.31

8.37

167.21

30.06.2021

Unaudited

1.269.69

233.19

192.69

154.43

The above is an extract of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges. The detailed

Financial Results are available on the Company's website at www.alembicpharmaceuticals.com and

the Stock Exchange's website at www.nseindia.com and www.bseindia.com

Quarter Ended | Quarter Ended



Name and Address of the entity seeking EOI: Bangalore International Airport Limited (BIAL) BIAL Project Office, Alpha ыль Project Uffice, Alpha - 2 Kempegowda International Airport. Bengaluru 560 300 Web: www.bengaluruairport.com

### NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST ("EOI")

Preliminary civil & allied works for connectivity to Terminal2 Phase1 at Kempegowda International Airport (KIA), Bengaluru (the "Project").

The scope of work includes but is not limited to excavation and backfilling, construction of retaining walls, shell and core RCC works, waterproofing works etc., to be carried out adjacent to Terminal 2 Phase1 at KIA to augment connectivity ("Work").

BIAL invites interested applicants to submit their response to invitation to EOI for carrying out the Work and successfully handing over the Project. Consortium/ joint venture participation is not permitted.

Information on the EOI (Information Document) can be obtained from the BIAL website (https://www.bengaluru www.bengaluruairport.com airport.com/corporate/engage-with-us/tenders.html) (refer Information Document). Bidding for this Project is through e-tendering. Applicants shall register on e-portal https://www.bialtenders.com, as per the e-Tendering instructions provided with the Information Document.

Applicants shall view/ download the EOI document from the e-portal https://www.bialtenders.com between1400 hrs IST on July 27, 2021 and 1600 hrs IST on August 11, 2021. The EOI must be submitted online at https://www.bialtenders.com on or before 1700 hrs IST on August 11, 2021.

Addendum, if any, to this EOI shall be made available on the BIAL website and the e-portal.



SRIKALAHASTHI PIPES LIMITED Regd. Office & Works: Rachagunneri-517 641 Srikalahasthi Mandal, Chittoor District, AP, Indi Website: www.srikalahasthipipes.com -mail: companysecretary@srikalahasthipipes.cor hone: 08578-286650-286655, Fax: 08578-28668

## CIN : I 74999AP1991PI C013391 NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (1) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday the 4th August, 2021 interalia, to consider and approve Un-audited Financial Results of the Company for the guarter ended 30th June, 2021

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.srikalahasthipipes.com and on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and

For Srikalahasthi Pipes Limite G. KODANDA PANI

Place: Rachagunneri Date: 26.07.2021

**ESSAR** 

### **ESSAR SECURITIES LIMITED**

CIN: L65990TN2005PLC071791 Reg. Office: 56, New No. 77, C. P. Ramaswamy Road, Abhiramapuram, Chennai - 600018, Tamil Nadu, India. Tel.: +91 44 24995340 Email id: eslinvestors@essarservices.co.in • Website: www.essar.com

## NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Éssar Securities Limited (CIN:L65990TN2005PLC071 791) will be held on Monday, August 16, 2021 at 12:00 P.M at Utsava, New No.38, 2nd Main Road, R.A.Puram, Chennai - 600 028, Tamil Nadu to transact the business as set out in the notice convening the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, August 10, 2021 to Monday, August 16, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Members are requested to note that the followings:

.The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year ended March 31, 2021 has been sent to the Members at their registered addresses in the prescribed mode and electronically to those Members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on July 26, 2021. 2.Members holding shares as on the cut-off date i.e. August 9, 2021 may

cast their vote electronically on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- the Ordinary business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means
- the remote e-voting shall commence on Friday, August 13, 2021
- the remote e-voting shall end on Sunday, August 15, 2021 at (5.00 p.m).;
- the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is August 9, 2021;
- any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. August 9, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- members may note that : a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the membe shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot papers shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting facility may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again and d) a person whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Company as on the cut-off date i.e. August 9, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
- the notice of the AGM is available on the website of the Company www.essar.com and website of the CDSL https://www.evotingindia.com. in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for
- members at the Help Section of https://www.evotingindia.com or call on helpdesk no: 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi at telephone no. 022-23058542 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

For Essar Securities Limited

Rachana H Trivedi Company Secretary & Compliance Officer Membership No: ACS 62289

### APOLLO PIPES LIMITED CIN: L65999DL1985PLC022723

Date: July 26, 2021

Regd. Office: 37. Hargobind Enclave, Vikas Marg. Delhi - 110092 Corp. Office: Plot No. A- 140, Sector 136, Noida, U.P.- 201301 Email: compliance@apollopipes.com , Website: www.apollopipes.com

### Extract of Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 (Figrure ₹ in Lakhs except EPS)

	Current	Corresponding	Previous
DADTICIII ADC	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
PARTICULARS	30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021
	Un-audited	Un-audited	Audited
Total Income from Operations	13,761.00	9,250.73	51,806.83
Net Profit/(Loss) for the period	1,208.14	286.71	6,067.15
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)			
Net Profit/(Loss) for the period before tax	1,208.14	286.71	6,067.15
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)			
Net Profit / (Loss) for the period after tax	875.09	200.07	4,447.43
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the	878.77	201.93	4,461.69
period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]			
Equity Share Capital	1,310.94	1,310.94	1,310.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance	-	-	33,835.81
Sheet of the previous year			
Earning Per Share (face value of Rs. 10/- each, not annualised for quarterly figures)			
Basic:	6.67	1.53	33.93
Diluted:	6.67	1.53	33.93

## Notes:

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and Company's website "www.apollopipes.com" 2. The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting
- policies shall be disclosed by means of a footnote. 3. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS
- For Apollo Pipes Limited Rules, whichever is applicable

Sameer Gunta Date: 26 July, 2021

Place: Noida

Managing Director DIN: 00005209

₹ in crore

### **Business Standard DELHI EDITION**

E-voting during the AGM.

PAN card and any address proof

VC/OAVM.

Date: July 26, 2021

Place: Mumbai

Printed and Published by Nandan Singl Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadu Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shvamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201

For Subscription and Circulation

enquiries please contact: Ms. Mansi Singh **Head-Customer Relations** Business Standard Private Limited H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli,

Mumbai - 400013 E-mail: subs\_bs@bsmail.ir or sms, REACHBS TO 57575

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to presen an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and owledge. Business Standard does not take any responsibility for investment o

basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the

business decisions taken by readers on the

advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction transmission or redissemination of the ontents, in any form or by any me prohibited without the prior written consen of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Anv such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and

riminal liabilities No Air Surcharge

# **Kotak**®

Govinda Soni

attested sca

By Order of the Board of Directors of

Company Secretary & Compliance Officer

**Bharat Wire Ropes Limited** 

## KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

CIN - L65110MH1985PLC038137

Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) - 400 051. Tel.: +91-22-61660001 Website: www.kotak.com

STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE. 2021

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021

₹ in crore

The above is the extract of the detailed format of Quarter / Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of Quarter / Year ended Financial Results are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on www.kotak.com)

Quarter ended Year ended **Quarter ended Particulars** 30th June, 2021 31st March, 2021 30th June, 2020 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 8.062.81 32,299,47 7.685.40 Total income from operations (net) 1.641.92 6.964.84 1 244 45 Net Profit / (Loss) after tax (before extraordinary items) Net Profit / (Loss) after tax (after extraordinary items) 1.641.92 6.964.84 1,244.45 Equity Share Capital 991.34 990.92 989.40 Reserves (excluding Revaluation Reserves and Minority 62,236.05\*\* 47,558.78 47,558.78 nterest as shown in the balance sheet of the previous year Basic Earnings per equity share (before extraordinary items) 8.28 35.17 6.43 Diluted Earnings per equity share (before extraordinary items (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹ 8.28 35.14 6.42 Basic Earnings per equity share (after extraordinary items) 8.28 35.17 6.43 (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹ Diluted Earnings per equity share (after extraordinary items) 8.28 35.14 6 42 (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹

Particulars	Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2021 (Unaudited)	Year ended 31 <sup>st</sup> March, 2021 (Audited)	Quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2020 (Unaudited)
Total income from operations (net)	12,799.59	56,703.73	12,323.15
Net Profit / (Loss) after tax (before extraordinary items)	1,806.09	9,990.20	1,852.59
Net Profit / (Loss) after tax (after extraordinary items)	1,806.09	9,990.20	1,852.59
Equity Share Capital	991.34	990.92	989.40
Reserves (excluding Revaluation Reserves and Minority Interest as shown in the balance sheet of the previous year)	83,345.53**	65,677.60*	65,677.60*
Basic Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.11	50.53	9.57
Diluted Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.11	50.49	9.56
Basic Earnings per equity share (after extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.11	50.53	9.57
Diluted Earnings per equity share (after extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.11	50.49	9.56

By Order of the Board of Directors For Kotak Mahindra Bank Limited

**Dipak Gupta** 

As on 31st March 2020 As on 31st March 2021

Mumbai, 26th July, 2021

Joint Managing Director

अजय कमार तथा रीता पाठक पता : म नं १७४८ गली नं १०८-अप्रैल-२१ रु २३६१५४० १७/- (रुपये दो मिलियन

		301 00316660001		ल मेहरा, रिचा श्रीवास्तव, पता : बी-054, 1		4,722.30 (रुपय बाइस लाख चारासा सात सौ बाईस एवं तीस पैसे मात्र)	314	HOU/PTP/ 1018/590459:	अजय कुमार तथा रीता पाठक, पता : म.नं. 1748 गली नं. 1, दयानन्द नगर, बहादुरगढ़, हरियाणा- 124507 तथा		रु. 2361540.17/- (रुपये दो मिलियन तीन सौ इकसठ हजार पाँच सौ चालीस एवं सत्रह
		शा.का. जनक		ोटेक नेस्ट, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, ग्र201016	हजार र	सात सा बाइस एवं तास पर्स मात्र) 16.06.2021 तक		१७१८/५५५५ : शा.का. पीतमपुरा	डुमेडी, हरौथा, अलीगढ़, उ.प्र 202124		पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
(a) pnb Hou		 जमानती(यों) का नाम एव		ज्य -				त्ति(यों) का नाम एवं पता			-Crymm 124507
		बंधक सम्पत्ति(याँ) : फ्लै	तैट नं. 23204. 23	3वाँ तल, टॉवर- लॉरेल, महागुन माई वुड्स,		201305,	बधक 315	सम्पत्ति(याँ) : 404, 4, टॉव HOU/PTP/	ार-3, ओमेक्स शुभांगन, सेक्टर-4ए, बहादुरगढ़, जिला झज विरेन्दर कुमार तथा मीनु, पता : प्लॉट नं. 134ए, ब्लॉक		
		302 00316660001 शा.का. जनव		ोट वी काम्बले, पीयूष सरन, पता : 1 आईटी चाल नं. 13, रूम 67, तडवाड़, सेंट		,15,997.27/- (रुपये चौंतीस लाख जार नौ सौ सत्तानबे एवं सत्ताईस पैसे		0119/632638:	ए, जे.जे. कॉलोनी, बक्करवाला, दिल्ली-110041	55 SINCE 21	सौ बीस हजार पाँच सौ पैंतीस एवं सत्तर पैसे
Financelin	nited	शा.का. जनव	मैरी	रोड, मझगाँव, मुम्बई, महाराष्ट्र-400010	पन्द्रह हर	TTT) 1/ 0/ 2021 TT	<del></del>	शा.का. पीतमपुरा गि(यों) का नाम एवं पता	. थागोला –		मात्र) 31-03-2021 तक
Finance Lin Ghar Ki Ba	1		तथा	1 7, विनोद सिंह चाल, करवालो नगर,			बंधक	सम्पत्ति(याँ) : 23184.0,2	3, मैनग्रोव, महागुन माईवुड्स फेज 111, प्लॉट नं. जीएच-		
I GNAY KI BAI	at 1			गे, महाराष्ट्र -400606					आशीष बजाज तथा लता बजाज-पता : सी 32ए, जैन	14-मई-21	
		जमानती( यों ) का नाम एव बंधक सम्पन्ति( याँ ) : यनिट		ोज्य – ग्राँ तल, महागुन माईवुड्स, मारवेला, प्लॉट नं. र्ज	जीएच-04 ग्रेक्टर-14-3	सी ग्रेटर नोएडा उ.प -२०१२०७	<sup>1</sup>	HOU/JAN/0119/633458 : शा.का. जनकपुरी	(पाक, उत्तम नगर, ादल्ला		तीन सौ छः हजार चार सौ चौबीस एवं सत्तानबे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
290   00316660001684, प्रवीण मुरारी लाल तुलिसयान तथा मनीषा तुलिसयान, पता :   08-04-21   HOU/JAN/ एफ-706 रिश्म अपार्टमेंट, हर्ष विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-	रु. 18424323.12/- (रुपये अठारह मिलियन चार सौ चौबीस हजार तीन सौ	303 00316660001		नेन्दिता सरकार, बिद्युत कान्ति सरकार, पता 1				त्यों) का नाम एवं पता			•
0615/225252 : 110034,	तेईस एवं बारह पैसे मात्र) 31-03-2021	शा.का. जनक	कपुरी : इ	ई-854, प्रथम तल, चितरंजन पार्क, नई	तिरेपन ह	जार एक सौ तिहत्तर एवं तिरानबे पैसे	बधक 317	सम्पत्ति(याँ) : 1602.0, 16 HOU/JAN/	<ul> <li>ठाँवर एच, स्काईटेक मैट्रोट, सेक्टर 76 नोएडा, उत्तर प्रदे</li> <li>शिखा सिंगला तथा तरुण कुमार कुरील, पता : म.नं. 13,</li> </ul>		रु. 6657235.98/- (रुपये छः मिलियन छः
शा.का. जनकपुरी जमानती(यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य -	तक			ली-110019 तथा जी 1359, प्रथम तल, तरंजन पार्क, नई दिल्ली- 110019		मात्र)	[ ]	0417/371773 :	ए-273, संगम अपार्टमेंट, टॉवर-सी, फेज-2, छत्तरपुर,		सौ सत्तावन हजार दो सौ पैंतीस एवं अट्ठानबे
जमानता( <b>या ) का नाम एव पता</b> : अप्रयाज्य - <b>बंधक सम्पत्ति(याँ )</b> : यूनिट नं. ए2-1202, एमराल्ड बे, सेक्टर 104, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, सेव	क्टर-104, जनकपुरी, हरियाणा	जमानती(यों) का नाम एव		,				शा.का. जनकपुरी	दिल्ली-110074 तथा म.नं. बी-2/83, मोहल्ला बंसन वाला. नाभा. पटियाला. पंजाब-147201		पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
291 HOU/PTP/ आशुतोष कुमार तथा संगीता गोस्वामी- पता : 915, प्रथम 08-04-21				गण्य - ागुन माईवुड्स फेज III, प्लॉट नं. जीएच-04, सेक	क्टर-16सी, नोएडा एक्सरे	टेंशन, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र999999	जमानती	ी(यों) का नाम एवं पता	: अप्रयोज्य -		
0219/655683 : तल, गणेश मन्दिर मार्ग, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा	सौ नब्बे हजार चार सौ अट्ठानबे एवं	304 0031666000		ार कौल, अर्चना कौल, पता : मकान नं. 1	16-06-21 ₹. 43,			<b>सम्पत्ति( या )</b> : 2502, 25, ट व्य. नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत	गॅवर 1, सनशाइन सोलेरिस (होल्ड), स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट नं. ∸201301	एससी-01/डी2,	, संक्टर-79, नोएडा, अप्रयोज्य, गौड़ स्पोर्ट्सवुड,
शा.का. पीतमपुरा जगन्नाथपुर, कुमार, गंज, फरीदाबाद, उ.प्र224229	बयालीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	शा.का. जनव	कपुरी - 2	22 इन्दिरा कॉलोनी, गोल गुजराल रोड,		हजार आठ सौ एक एवं चौवन पैसे	318	HOU/JAN/	संजीव कुमार तथा सीमा रानी, पता : म.नं898, 2सरा	08-अप्रैल-21	
जमानता( <b>यां ) का नाम एवं पता</b> ः अप्रयाज्य – <b>बंधक सम्पत्ति(याँ )</b> ः सी1501,15,टॉवर सी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से !	590 , ग्राम मसीत, जिला अलवर, राजस्थान.			ताब टिल्लो, जम्मू-180001 तथा म.नं. /12 लेन-3, कृष्णा कॉलोनी, गुरुग्राम-		मात्र) 16.06.2021		0816/311195 : शा.का. जनकपुरी	तल, डी.डी.ए. फ्लैट्स ग्रुप-3, हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली-110059		सौ पचहत्तर हजार तीन सौ बासठ एवं चौदह पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
भिवाड़ी, हरियाणा-301019	,,,			2001				ी(यों) का नाम एवं पता	: अप्रयोज्य -		
292 HOU/JAN/ सुब्रतो बिस्वास, रिया बिस्वास, पता : ए एवं टी नं. 820, 20वाँ 15-04-21		्रा जमानती(यों) का नाम एव	्वं पता : अप्रयो	पोज्य -			-0	<b>सम्पत्ति( याँ )</b> : फ्लैट नं. 10 टी युनिवर्सिटी, देहरादुन, उत्तर	)5, टॉवर नं. टी1, आर्केडिया हिलॉक्स, बकराल गाँव, आर्के ाखण्ड.	डिया हिलॉक्स, ग	गोल्डेन एरा इन्फ्राटेक प्रा.लि., मसूरी रोड, निकट
0116/263898 : मेन, एसटी-1, भूतल एचएसआर लेआउट सेकण्ड सेक्टर, कर्नाटक शा.का. जनकपुरी   एवं, एफ- 765/17 लेन-6, राजनगर II सेक्टर, द्वारका, नई दिल्ली	एक सौ चौंतीस हजार दो सौ इकहत्तर एवं नौ पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक सम्पत्ति(याँ) : यूनि	नेट नं. 22198, 22	 2सरा तल, ब्लॉक सिन्नामोन, महागुन-माई वुः	बुड्स, फेज-III, प्लॉट	नं. जीएच- 04,सेक्टर- 16सी, ग्रेटर	319	HOU/JAN/	प्रीति गोगिया तथा जितेन्दर कुमार गोगिया, पता : मकान	08-अप्रैल-21	
जमानती( यों ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य -	11 1(1 114) 31-03-2021 (14)	नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307						0816/307760 :	नं33, ब्लॉक नं1, रमेश नगर, दिल्ली-110015		सौ बाईस हजार सात सौ चौवालीस एवं अड़तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
बंधक सम्पत्ति(याँ) : ब्लॉक 5, सत्रहवाँ तल, 705, ओपेल ओरिस (होल्ड), क्र.सं. 8, 6/2/2/2, 10		305 0031666000 <sup>7</sup> : शा.का.जनक		नाथ शर्मा, मीनू शर्मा - 1 ा : 107, मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, नई		3.48/- (रुपये बत्तीस लाख बाईस हजार सठहत्तर एवं अडतालीस पैसे मात्र) 16-		शा.का. जनकपुरी गि(यों) का नाम एवं पता	<u>।</u> : अप्रयोज्य –		जङ्तास पस मात्र) 31-03-2021 तक
हुजूर, जिला भोपाल म.प्र., 462001 तथा ब्लॉक 5, आठवाँ तल, 804, ओपेल ऑरिस (होल्ड) ग्राम मि	सरोद, द हुजूर, जिला भोपाल म.प्र462001	. (11. 471. 4114		ली-110018	41 711 911		बंधक	सम्पत्ति(याँ) : 207, 2, ट	. जि. १००५ प्रवर ए, एसकेए ग्रीन मैंशन, जीएच-01ए, सेक्टर-12, ग्रेट	र नोएडा, (उ.प्र.	.), गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. अमात्रा ग्रीन, ग्रेटर
293 HOU/JAN/ हनी दलावारी तथा रेखा दलावारी, पता : आर 82 मॉडल 08-04-21		जमानती(यों) का नाम एव				, , , .	नाएडा, 320	उ.प्र201301 HOU/JAN/	ऋषि मोहन तथा विवेक मोहन- पता : फ्लैट नं	08-अपैल-21	रु. 5902798.63/- (रुपये पाँच मिलियन जै
0319/671934 : शा.का. जनकपुरी	पाँच सौ सतहत्तर हजार नौ सौ तिरेसठ एवं बहत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	<b>बंधक सम्पत्ति(याँ)</b> : 181 प्रदेश-999999	186, 18, मैनग्रोव,	ा, महागुन माईवुड्स फेज III, प्लॉट नं. जीएच	च-04, सेक्टर-16सी, न	नोएडा एक्सटेंशन , ग्रेटर नोएडा, उत्तर	1525	0317/370856 : शा.का.	सी/406, 4था तल ओम साई प्लाजा, ग्राम ओवेल, थाणे,	रुठ आज≪ा=Z1	सौ दो हजार सात सौ अट्ठानबे एवं तिरेसठ
जमानती( यों ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य -			5/213282   ++ 0	नीव त्यागी, रश्मि त्यागी, पता : पी– 147ए, 1	17-06-21 25 20 73	35 67/- (उत्तारो गैंजीस त्यान उपलिप	Щ	जनकपुरी	मुम्बई, महाराष्ट्र-400615		पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
<b>बंधक सम्पत्ति(याँ)</b> : 402.0, 4.0, टॉवर-12, द सेरेनास, सेक्टर 36, सोहना, हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्रा	म, हरियाणा-122001	NHL/JAN/0716/	6/ 305176, संज	तय नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद, उत्तर				ति(यों) का नाम एवं पता सम्प्राति(याँ) : यनिट नं २०	: अप्रयोज्य - 04 2सरा तल, टॉवर टी1, खसरा नं26/2 75/1 8292/3:	77/1 25 बक्रगल	न गाँव निकट डीआईटी यनिवर्सिटी मसरी रोड
294 HOU/JAN/ जितन जय करन तथा बिजय कुमार गुप्ता, पता : फ्लैट नं 08-04-21		NHL/JAN/ 0315	5/213616: प्रदेश		""	, ,		न, आर्केडिया हिलॉक्स देहरादू		४३ अफराए	, तामण्ड जाजारूच मूलजात्तवा, नेतूरा रीड,
0516/285553 : 4ए , 4था तल, प्लॉट नं. 1, किशन गढ़, दिल्ली-110063, तथा	एक सौ सत्तासी हजार छः सौ एक एवं पाँच	शा.का. जनक	,				321	HOU/JAN/	मलेश्वर सिंह तथा मीनाक्षी सिंह, पता : म.नं. 35ए, एमआईजी	08-अप्रैल-21	
शा.का. जनकपुरी 27 , वार्ड नं. 30, दुखी साह लेन, देवघर, झारखण्ड-814112 जमानती(यों) का नाम एवं पता : आशीष कुमार निवासी 601, 6,टॉवर-ए-3, अडानी आंगन, उ	पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती(यों) का नाम एव बंधक सम्पन्ति(याँ) पी 1		योज्य – ब्लॉक पी, सेक्टर 23 एचआईजी संजय नगर,	र गाजियाबाट उ.च. १८	01010		1016/323575 : शा.का. जनकपुरी	फ्लैट्स, सेक्टर-100, नोएडा, उ.प्र201304 तथा म.नं. 35ए, एमआईजी फ्लैट्स, सेक्टर-100, नोएडा, उ.प्र201304		आठ सौ तिरासी हजार आठ सौ बीस एवं बाईस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
जमानता( वा ) का नाम एवं पता : आशाष कुमार निवासा ६०७, ६,टावर-ए-उ, अडाना आगन, ! एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, हरियाणा,-122001	वान- <i>रुरतारू, तप</i> टर ठठए तथा ४५ए, द्वरिका	307 NHL/JAN/ 0816		व्याक पा, सक्टर 23 एचआइआ संजय नगर, तव श्रीवास्तव, सुप्रा करुण, पता : ई-62, 1		8.122.98/- (रुपये पिचासी लाख		•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
<b>बंधक सम्पत्ति( याँ</b> ) : 601, 6, टॉवर-अ-3, अडानी आंगन, ग्राम- हरसारू, सेक्टर 88ए तथा 89ए, द्वारका	। एक्सप्रेसवे , गुरुग्राम, हरियाणा, भारत-122001	शा.का. जनक					जमानती	ी(यों) का नाम एवं पता	: अप्रयोज्य -		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		न वुड सिटी सेक्टर-46, गुरुग्राम, हरियाणा-		। हजार एक सा बाइस एवं अट्ठानब 🛮		ਜਜ਼ਾਜ਼ਿਕ ਜਾੱ\ ਜਜ਼ੈਜ਼ ਤੋਂ ਤਤਕ		n 3133 that -	74 man are ann ainear a n- oare - co-co-
295 HOU/PTP/ राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21			122	2001					14, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टॉवर सीवी1 सुपरटेक के सिज ओझा तथा ओकला नन्द ओझा. पता : म.नं. 124. रूम		
295 HOU/PTP/ राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी.पी बी.पी. ग्राम मनीरका. नई दिल्ली-110067.	सात सौ पैंतालीस हजार एक सौ इक्यानबे	जमानती(यों) का नाम एट	1220 <b>वं पता</b> : अप्रयो	2001 पोज्य -	पै	रेसे मात्र) 17-06-2021 तक	<b>बंधक</b> ३ 322	HOU/JAN/ 0717/409409:	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टॉवर सीवी1 सुपरटेक के रिंजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम  नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुग्राम,	08-अप्रैल-21	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सौ सँतालीस हजार आठ सौ तैंतीस एवं सत्तर
295 HOU/PTP/ राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21	सात सौ पैंतालीस हजार एक सौ इक्यानबे	जमानती(यों) का नाम एट	1220 <b>एवं पता</b> : अप्रयो यू डोर नं. 245, पु	2001	पै	रेसे मात्र) 17-06-2021 तक	<b>बंधक</b> ३ 322	HOU/JAN/ 0717/409409:	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए. 17वाँ तल, टॉवर सीवी1 सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम	08-अप्रैल-21	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक
295 HOU/PTP   राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता: मकान नं. 160   08-04-21   1119/757881: सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा   तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली,-110067   जमानती( यों ) का नाम एवं पता: अप्रयोज्य	सात सौ पैंतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एव बंधक सम्पत्ति( याँ ) ः न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118	्वं पता : अप्रयो यू डोर नं. 245, पु , 605001 8/482009 : राके	2001 योज्य - युराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट रुश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव- पता 1	टी.एस.नं. 100/2, वा	। हजार एक सा बाइस एवं अट्टानब मेसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्ल स्ट्रीट	बंधक <sup>3</sup> 322	HOU/JAN/ 0717/409409 : शा.का. जनकपुरी गि(यों) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए. 17वाँ तल, टॉवर सीवी1 सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुग्राम, हरियाण-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ बक्शी गाँव, बनकटा जगदीज, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र-274704 : अप्रयोज्य –	08-अप्रैल-21	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैंतालीस हजार आठ सी तैंतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ ताज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता: मकान नं. 160 08-04-21 1119/757881: सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली,-110067 जमानती( यों ) का नाम एवं पता: अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति( यों ): 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019	जमानती( यों ) का नाम एव बंधक सम्पत्ति( याँ ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी,	्वं पता : अप्रयो यू डोर नं. 245, पु . 605001 8/482009 : राके मपुरा : उ	2001 गेज्य - रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट इश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव- पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र	टी.एस.नं. 100/2, वा 16-06-21 88,62, बासट हर	। ठजार एक सा बाइस एय अट्टान्य सेसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अट्टासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे	बंधक न 322 जमानती बंधक	HOU/JAN/ 0717/409409 : शा.का. जनकपुरी ग्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ) : 1001, 10,	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए. 17वाँ तल, टॉवर सीवी1 सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूप नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुप्राम, हरियाणा–122001 तथा 47, कुरामैली उर्फ बक्शी गाँव, बनकटा जगदीज, भाटपार रानी, देविरेया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य – टॉवर डी, द रोजेलिया अफोर्डेबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए.	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आठ सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP' ताज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, ताथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुढ विहार, मुनीरका सावाध्य वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती(थाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति थाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजार जिला अल	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानवे एवं चीरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाइी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन	जमानती(यों) का नाम एव बंधक सम्पत्ति(यों): न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम	1220   खं पता : अप्रयं   यू डोर नं. 245, पु   605001   8/482009 : राके:   मपुरा : 1	2001 मेज्य - रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट इस कुमार एच यादव, शर्मिला यादव- पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र 1308, भारत	टी.एस.नं. 100/2, वा 16-06-21 88,62, बासट हर	। ठजार एक सा बाइस एय अट्टान्य सेसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अट्टासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे	बंधक <sup>3</sup> 322	HOU/JAN/ 0717/409409 : शा.का. जनकपुरी ग्रि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों) : 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071 :	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए. 17वाँ तल, टॉवर सीवी1 सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुग्राम, हरियाण-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ बक्शी गाँव, बनकटा जगदीज, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र-274704 : अप्रयोज्य –	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आठ सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ ताज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता: मकान नं. 160 08-04-21 1119/757881: सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली,-110067 जमानती( यों ) का नाम एवं पता: अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति( यों ): 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्प्रित (यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम	1220   ह्वं पता : अप्रयं   यू डोर नं. 245, पु   605001   8/482009 : राके:   मपुरा : 7   201:	2001 मेज्य - रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट इस कुमार एच यादव, शर्मिला यादव- पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र 1308, भारत	टी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, बासठ हर	। ठजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य सेसे मात्र) 17-06-2021 तक [र्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	बंधक न 322 जमानती बंधक - 323	HOU/JAN/ 0717/409409 : शा.का. जनकपुरी ग्रि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों) : 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071 : शा.का. जनकपुरी	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हुमुमान मन्दिर, गुरुआम, हिरायाण-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्सी गाँव, बनकटा जगदीस, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर ही, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिख दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एससटेंसन, व्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सौ सैतालीस हजार आठ सौ तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 1, 122001 रु. 833475.68/- (रुपये आठ सौ तैतीस
295 HOU/PTP' राज कुमार माझी तथा जैसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (याँ) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्वीर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 1961/701578 : नं. 3 बसाई, एन्कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य-	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सी तेरह हजार पाँच सी अट्टानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति (यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतन प्रवंधक सम्पत्ति (यों ) : म.	122/ एवं पता : अप्रयो यू डोर नं. 245, पु 605001  8/482009 : राके मपुरा : 7 201. एवं पता : अप्रयो	2001 योज्य - रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट हश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव- पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र 1308, भारत	टी.एस.नं. 100/2, वा 16-06-21 88,62, बासठ हुड डा, गौतम बुद्ध नगर, उ	। रुजार एक सा बाइस एवं अन्द्राज्य सेसे मात्र) 17-06-2021 तक हर्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अट्डासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	बंधक च 322 जमानती बंधक च 323	HOU/JAN/ 0717/409409 : शा.का. जनकपुरी ग्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ) : 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071 : शा.का. जनकपुरी ग्री(यों) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हुमुमान मन्दिर, गुरुआम, हिरायाण-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्सी गाँव, बनकटा जगदीस, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर ही, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिख दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एससटेंसन, व्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21	र. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आठ सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      रा, 122001     र. 833475.68/- (रुपये आठ सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP' ताज कुमार माझी तथा जैसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 1119/757831 : सी 5वाँ तल बीर्गी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा. का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वेधक सम्पत्ति याँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 ; तं. 3 बसाई, एन्कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा. का. जनकपुरी जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति (याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति (याँ) : बी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सी तेरह हजार पाँच सी अट्टानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति (यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतन प्रवंधक सम्पत्ति (यों ) : म.	122'	2001 भोज्य – पुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट क्स कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत भोज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राडण्ड फ्लोर, महावीर	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39	। रुजार एक सा बाइस एवं उत्हानाथ सेसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अट्डासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 5.प्र. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र)	जमानती बंधक 322 जमानती बंधक जमानती बंधक	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1005,10,25  NHL/PTP/ 0717/406637	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विवार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा—12001 तथा 47, कुरुमोली उर्फ वश्यों गाँव, बनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प274704 : अप्रयोज्य – टाँवर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरीली एक्सटरेंशन, ब्लॉक-बी, राजबीर कालीनी, दिल्ली—10096 : अप्रयोज्य – विप्त थी,ट हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी,	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आठ सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 1, 122001 रु. 833475.68/- (रुपये आठ सौ तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 रु. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन
295 HOU/PTP' त्राज कुमार माझी तथा जैसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वेधक सम्पत्ति याँ) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 ; तं. 3 बसाई, एन्कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य सम्पत्ति याँ) : बी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से मिवाड़ी, हरियाणा,-301019	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सौ तेरह हजार पाँच सौ अद्जानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म.	122'	2001 योज्य – दुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट हश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत योज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र द्विवेदी, सुब्रता कुमारी, पता: आरजेडडी 1	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39	। ठजार एक सा बाइस एव जर्दानाय सेसे मात्र) 17-06-2021 तक ।ई-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्ल स्ट्रीट १,836.21/- (रुपये अट्टासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक इ.प्र. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी	जमानती बंधक 322 जमानती बंधक जमानती बंधक	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1005,10,25  NHL/PTP/ 0717/406637	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुग्राम, हिरायणा-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टांबर डी, द रोजीलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बीं-447, घरौली एक्सर्टेशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110996 : अप्रयोज्य - टांबर बीट, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट विंवर बीट, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 1, 122001 रु. 833475.68/- (रुपये आट सौ तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 रु. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छल्तीस पैसे
295 HOU/PTP' 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा जीसका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 शा.का. पीतमपुरा तथा जीसका गाँव निकट, प्रजापित महल बुढ विहार, मुनीरका तथा निकट, प्रजापित महल बुढ विहार, मुनीरका तथा विकट, प्रजापित महल बुढ विहार, मुनीरका सांवाथ वेस्ट दिल्ली,-110067  जमानती( खों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्प्रति खों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्वोर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : नं. 3 बसाई, ए-कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी जमानती( खों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्प्रति (खों) : बी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हरियाणा,-301019	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानवे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्डानवे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम प्रंबंधक सम्पत्ति( यों ) : म. 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक	122	2001 योज्य – रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट रुश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत योज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र द्विचेदी, सुन्नता कुमारी, पता : आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39	। रुजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य संसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्ल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,प्र. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 323 जमानती	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी ग्री( को) का नाम एवं पता सम्पत्ति( वाँ): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी ग्री( का नाम एवं सम्पत्ति( वाँ): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुवाम, हिरायाण-122001 तथा 47, कुगमीली उर्फ वक्षयी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजीलिया अफोर्डेबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सर्टेशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विंद बीट, हाइटेक अफोर्डेबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63बी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य -	08- अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08- अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08- अप्रैल-21	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 1, 122001 रु. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 रु. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन
295 HOU/PTP' त्राज कुमार माझी तथा जैसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वेधक सम्पत्ति याँ) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 ; तं. 3 बसाई, एन्कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य जमानती(याँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य सम्पत्ति याँ) : बी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से मिवाड़ी, हरियाणा,-301019	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानवे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्डानवे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान., रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छ: सौ तीन एवं नब्बे	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म. 309 HOU/JAN/061: शा.का.जनक	122'	2001 योज्य – रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट रुश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत योज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र द्विचेदी, सुन्नता कुमारी, पता : आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासठ हव  डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39	। रुजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य संसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्ल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,प्र. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी गि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1005,10,2  NHL/PTP/0717/406617: शा.का. पीतमपुरा  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): वी 63, व्लां	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विवार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुममीली उर्फ वश्यो गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सटरेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कालोनी, दिल्ली-110096 : आप्रयोज्य - विप्त थी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 6३वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : आप्रयोज्य -	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08-अप्रैल-21	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक रु. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 रु. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP' 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका सांवा करने दिल्ली-110067  जमानती( यों ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (यों ) : 503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : नं. 3 बसाई, एन्कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी जमानती( यों ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य- बंधक सम्पत्ति (यों ) : वी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पियाड़ी, हरियाणा,-301019  297 HOU/JAN/ 0216/265268 : शा.का. जनकपुरी जीएय-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, शा.का. जनकपुरी जीएय-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, जमानती( यों ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य -	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानवे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्डानवे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान., रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छ: सौ तीन एवं नब्बे	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाणिडचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म. 309 HOU/JAN/ 061 शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217	122	2001 योज्य – रुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट हश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत योज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड ह्र द्विवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आरजेडडी 1 , गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर हलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती	। रुजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य संसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,7, 201310 199.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी वोन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी गि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1005,10,2  NHL/PTP/0717/406617: शा.का. पीतमपुरा  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): वी 63, व्लां	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हरियाणा-12001 तथा 47, कुरमामेली उर्फ बक्शी गाँव, बनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउरिंग, सेक्टर 95 ए. शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोजय - विद्य बीट, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट विरा बीट, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट विरा बीट, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट विरा बीट, खाइटेक करने कि कीट के कि कि कि कीट कि कि कि कि कि कि कि कि कि कीट कि	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08-अप्रैल-21	रु. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आठ सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक रु. 833475.68/- (रुपये आठ सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 रु. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP' 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा, तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका, तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका सावध वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती( खों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (खों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : ज्ञा.का जनकपुरी जमानती( खों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य स्वधक सम्पत्ति (खों) : बी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हिरयाणा,-301019  297 HOU/JAN/ 0216/265268 : ज्ञा.का जनकपुरी जोएच-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, ज्ञाति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 जीएच-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, ज्ञाति प्रकाश थडानी तथा किरन चडानी, पता : 412 ब्लॉक जिएच-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, ज्ञाति प्रकाश चडानी तथा किरन चडानी, पता : 412 ब्लॉक क्रामनती( खों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति (खों) : फलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110063	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानवे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019 रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान., रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अठहत्तर हजार छ: सौ तीन एवं नव्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म. 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : 904	122'	2001  गेंच्य – दुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट हम कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र द्विवेदी, सुब्रता कुमारी, पता आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर हलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ 16-06-21 24,89,39 हजार ती 16-06-21 18,53 तिरेपन ह	। ठजार एक सा बाइस एवं अन्दानाय संसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अट्डासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 5.प्र. 201310 99.13/- (रुपये चींबीस लाख नवासी गिन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी  शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1005,10,2  NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा सम्पत्ति(यों): वी 63, ब्लॉ  सम्पत्ति(यों): वी 63, ब्लॉ	भ, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूप्प नं. 12, अशोक विद्यार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिर्पणा—12001 तथा 47, कुप्पमीली उर्फ बक्शी गाँव, बनकटा जगदील, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सरटेंबन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली—110096 : अप्रयोज्य - वित्य तथा, साइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63बी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली—110088 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी पलेंद्स शालीमार बाग, दिल्ली, 1100 विवाय कुमार सीरन तथा रंजीत सीरत, पता : म.नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा—122001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बल्जीत	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08-अप्रैल-21	र. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001      र. 833475.68/- (रुपये आट सौ तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अहस्तड पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001      र. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छल्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन
295 HOU/PTP' 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा तथा विशेष मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली,-110067  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (यों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : नं. 3 बसाई, एन्कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (यों) : वी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हरियाणा,-301019  297 HOU/JAN/ 2016/265268 : शा.का. जनकपुरी  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, शांका. जनकपुरी  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, शांका. जनकपुरी  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, शांका. जनकपुरी  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, शांका. जनकपुरी  जमानती( यों) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य विहार, सिल्ली-110087, शांका. जनकपुरी	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ो, राजस्थान, भारत-301019  क. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्टानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक 590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  क. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन यो सौ अटहत्तर हजार छ: सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति( यों ) : मः 309 HOU/JAN/ 061 शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति( यों ) : प्राः वाजनक 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक	122' खं पता : अप्रयं यू डोर नं. 245, पु. 605001  8/482009 : राके मपुरा : 201. खं पता : अप्रयं नं. 18/546312 हरेन्ड हुन्युरी : अप्रयं 04.0, 9, टॉबर ए-: 7/ 466964 प्रता: 7/ 466964 प्रता:	2001  गेंच्य – रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट हम कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र द्विवेदी, सुब्रता कुमारी, पता आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर हलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ 16-06-21 24,89,39 हजार ती 16-06-21 18,53 तिरेपन ह	। रुजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य संसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,7, 201310 199.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी वोन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	वंधक 322 जमानती वंधक 323 जमानती वंधक 324 N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा शि(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(याँ): वी 63, ब्लॉ	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विद्यार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुरुमंतील उर्फ वक्षणी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजेलिया अफोर्डेंबल हाउिंदेग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरीली एक्सरटेंशन, ब्लॉक-बी, राजबीर कालीनी, दिल्ली-10096 : अप्रयोज्य - विप्त थीट, हाइटेंक अफोर्डेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63बी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 1100 विवय कुमार सौरन तथा रंजीत सौरन, पता : म.नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हिरयाणा-12001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बलजीत नगर, नई दिल्ली-11008	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छ: हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, शा.का. पीतमपुरा, शा.का. पीतमपुरा, तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुढ विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली,-110067 जमानती(थाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति(थाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : चं. 3 बसाई, ए-कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, शा.का. जनकपुरी जमानती(थाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति(थाँ) : वी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाईी, हरियाणा,-301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : जीएच-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, शा.का. जनकपुरी जमानती(थाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति(थाँ) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697; : नं. 1296, एमरात, मस्कट, औमान तथा 3032, 8, सोलोमन	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छः सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासठ हजार दो सौ छः एवं	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम प्वंधक सम्पति( यों ) : म.: 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं	1222   स्वं पता : अप्रयं यू डोर नं. 245, पु (605001   8/482009 : राके 8/482009 : राके (स्वं पता : अप्रयंनं. 192, ब्लॉक वं 18/546312   हरेन्द्र हत्यं पता : अप्रयं )4.0, 9, टॉवर ए- (न्यं पता : अप्रयं )4.0, 9, टॉवर ए- (व्यं पता : अप्रयं )1/24   दिल्ल	2001  गेंच्य – रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट हम कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1 म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र द्विवेदी, सुब्रता कुमारी, पता आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर हलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, बासठ हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ 16-06-21 24,89,39 हजार ती  1-122001 16-06-21 18,53 तिरेपन इ	। उजार एक सा बाइस एय अन्दानाय से मात्र) 17-06-2021 तक गई-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथोड्डल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अट्डासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3.प. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी गिन सी निन्यानवे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,308.19/- (रुपये अटारह लाख हजार तीन सौ आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	बंधक उ 322 जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N जमानती बंधक 325 N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री का नाम एवं पता सम्पत्ति (वाँ): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी गा.का. जनकपुरी गा.सम्पत्ति (वाँ): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा सम्पत्ति (वाँ): वाँ 63, ब्लां NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा सम्पत्ति (वाँ) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हुनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुआमीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजीलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विवर डी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - क्वांबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 1100 विनय कुमार सीरन तथा रंजीत सीरन, पता : म.नं. 1706ए, एववीरी, सेक्टर-31, गुरुआम, हरियाणा-122001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008 : अप्रयोज्य त्रांद हिल्ली-110008 : अप्रयोज्य त्रांद हिल्ली-11008 : स्वंद हिल्ली-1108 : स्वंद ह	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 08-अप्रैल-21 88 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सौ तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, तथा 61/बी मुनीरका गाँव निकट, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साउथ वेस्ट दिल्ली, -110067  जमानती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्मित्त चों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : ज्रा.का. जनकपुरी जमार स्वेचक सम्मित्त चों) : बी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाड़ी, हिरयाणा,-301019  297 HOU/JAN/ 0216/265268 : ज्रा.का. जनकपुरी ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश यडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश यडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्योति प्रकाश व्यात : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति चों) स्व रंजन तथा शिग्रा सिंह, 33,7525 / 1,ब्लॉक नं. 412, वे 14-05-21 शा.का. जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 बी, हारका, दिल्ली-110075 मि0U/GUR/	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चीरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तेरह हजार पाँच सी अट्डानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अटहत्तर हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सी छियासठ हजार दो सी छः एवं	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म. 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 905 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : डी.	122	2001  योज्य –  राता डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट  इश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव – पता    म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. –  1308, भारत  योज्य –  बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड  न्द्र द्विवेते, सुन्नता कुमारी, पता : आरजेडडी    गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, –110045  ोज्य –  -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा-  गान कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए    १४५ प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी,  न्ती –110085  गोज्य –  फ्लैट नं. 1473, 3सरा तल, पंकिट जीएच-1,	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, वासठ हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ 16-06-21 24,89,39 हजार ती 16-06-21 18,53 तिरेपन ह	। उजार एक सा बाइस एवं अन्दानाय से मात्र) 17-06-2021 तक गई-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्ल स्ट्रीट १,836.21/- (रुपये अट्टासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3.3. 201310 99.13/- (रुपये जीबीस लाख नवासी गिन सी निन्यानवे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,308.19/- (रुपये अठारह लाख हजार तीन सौ आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक	वंधक उ  322  जमानती वंधक 323  जमानती वंधक 324 N  जमानती वंधक 325 N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति( याँ): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी  शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति( याँ): 1005,10,2  NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा  सम्पत्ति( याँ): वी 63, ब्लां NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा  सम्पत्ति( याँ): यां 63, ब्लां NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा  सम्पत्ति( याँ): पलैट नं. 17  HOU/JAN/ 0616/294442,	भ, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विवार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुममीली उर्फ वक्षणी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सरटेंबन, ब्लॉक-बी, राजवीर कालोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विवार कालोनी, हिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विवार कालोनी, हिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - विवार कालोनी, हिल्ली, हिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कि बीवी, एलआईजी प्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 विवार कुमार सीरन तथा उंजीत सीरन, पता : म.नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, पुरुआ, हिरयाणा-12001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008 : अप्रयोज्य - (७६९, सेक्टर-31, 320, गुरुआम, हिरयाणा-12001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एस३ 08-अप्रैल-21 18-	र. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  असएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001     र. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली–110067 जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योग (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : जो. जनकपुरी जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हरियाणा,–301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : जा का नाम एवं पता : अप्रयोज्य जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हरियाणा,–301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : जा का नाम एवं पता : अप्रयोज्य – बंधक सम्पत्ति (वाँ) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक – जीएच–8 पश्चिम विहार, दिल्ली–110087 जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य – बंधक सम्पत्ति (वाँ) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक – जीएच–8 पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697, : नं. 1296, एमरात, मरकट, ओमान तथा 3032, 8, सोलोमन श्रा.का. जनकपुरी, HOU/GUR/ 1015/246717 :	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छः सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासठ हजार दो सौ छः एवं	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म. 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : 905 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : डी.	122	2001  योज्य –  रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट  रूरा कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता  म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–  1308, भारत  योज्य –  बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड  न्द्र हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आरजेडडी 1 , गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर  फलेच, पालम गाँव, दिल्ली,–110045  गोज्य –  -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गान्त कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए  1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी,  गली–110085  पोज्य –  पाज्य पाण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : 0  प्र वाथा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर,  पा वाथा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर,	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, बासट हुउ डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती 16-06-21 18,53 तिरेपन ह	। ठजार एक सा बाइस एवं अन्दानिय संसे मात्र) 17-06-2021 तक ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट 2,836.21/- (रुपये अट्ठासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 5.प्र. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी गेन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3,308.19/- (रुपये अठारह लाख हजार तीन सौ आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक दिल्ली-110085 2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक गीस हजार एक सौ तिरेपन एवं छब्बीस	वंधक उ  322  जमानती वंधक 323  जमानती वंधक 324   N  जमानती वंधक 325   N	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी  शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति( याँ): 1001, 10,  HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी  शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति( याँ): 1005,10,2  NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा  सम्पत्ति( याँ): वी 63, ब्लां NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा  सम्पत्ति( याँ): यां 63, ब्लां NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा  सम्पत्ति( याँ): पलैट नं. 17  HOU/JAN/ 0616/294442,	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हुनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुआमीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजीलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विवर डी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - क्वांबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 1100 विनय कुमार सीरन तथा रंजीत सीरन, पता : म.नं. 1706ए, एववीरी, सेक्टर-31, गुरुआम, हरियाणा-122001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008 : अप्रयोज्य त्रांद हिल्ली-110008 : अप्रयोज्य त्रांद हिल्ली-11008 : स्वंद हिल्ली-1108 : स्वंद ह	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एस३ 08-अप्रैल-21 18-	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सौ तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली–110067 जमानती( यों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (यों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योग (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : शा.का. जनकपुरी जमानती( यों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (यों) : 13503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योग (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 297 HOU/JAN/ 0519/701578 : शा.का. जनकपुरी जमानती( यों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति (यों) : वी1501,15, टॉवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाड़ी, हिरयाणा,–301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : शा.का. जनकपुरी जमानती( यों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य – बंधक सम्पत्ति (यों) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली–110087 अमानती( यों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य – बंधक सम्पत्ति (यों) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697; नं. 1296, एमरात, मरकट, ओमान तथा 3032, 8, सोलोमन शा.का. जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर–19 बी, हारका, दिल्ली–110075 HOU/GUR/ 1015/246717 : शा.का. गुरुग्राम	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छः सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासठ हजार दो सौ छः एवं	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यू (मिशन स्ट्रीट), पाणिडचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : मा. 309 HOU/JAN/ 061 शा.का.जनक मम्पति( यों ) : का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : का नाम एवं वें यों । : का नाम	122	2001 योज्य – रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट रूश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.– 1308, भारत योज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आरजेडडी 1, गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045 ोज्य – -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गान्त कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, रली–110085 योज्य – पलैट नं. 1473, 3सरा तल, पंकिट जीएच–1, रर नाथ पाण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : 0 ए, बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर,	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, बासट हुउ डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती 16-06-21 18,53 तिरेपन ह	। रुजार एक सा बाइस एवं अन्दर्शनय संसे मात्र) 17-06-2021 तक ।ई-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट १,836-21/- (रुपये अट्डासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक इ.प्र. 201310 199-13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी जोन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक इजार तीन सौ आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक दिल्ली-110085 2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक तीस हजार एक सौ तिरेपन एवं छब्बीस मेंसे मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक क 322 जमानती वंधक 323 जमानती वंधक 324 N जमानती वंधक 325 N जमानती वंधक 326 F F	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्रि(सों) का नाम एवं पता सम्प्रति (सों) का नाम एवं पता सम्प्रति (सों): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617 : शा.का. पीतमपुरा श्रि(सों) का नाम एवं पता सम्प्रति (सों) का नाम एवं पता साम्प्रति (सों) का नाम एवं पता	भ, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टॉवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुमामेली उर्फ वश्यो गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टॉवर डी, द रोजेलिया अफोडॅबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिख दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सर्टेशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विस्त विद्या का स्ति के स्ति के स्ति के स्ति के स्ति के सिक्त के	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08-अप्रैल-21 88 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली–110067 जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योग (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : जो. जनकपुरी जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हरियाणा,–301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : जा का नाम एवं पता : अप्रयोज्य जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाड़ी, हरियाणा,–301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : जा का नाम एवं पता : अप्रयोज्य – बंधक सम्पत्ति (वाँ) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक – जीएच–8 पश्चिम विहार, दिल्ली–110087 जमानती(वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य – बंधक सम्पत्ति (वाँ) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक – जीएच–8 पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697, : नं. 1296, एमरात, मरकट, ओमान तथा 3032, 8, सोलोमन श्रा.का. जनकपुरी, HOU/GUR/ 1015/246717 :	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तेरह हजार पाँच सी अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अटहत्तर हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सी छियासट हजार दो सी छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/0118 शा.का. पीतम प्रं बंधक सम्पत्ति यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति (यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती (यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति (यों ) : डी. 311 HOU/JAN/011 शा.का. जनक जमानती (यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति (यों ) : डी. 311 HOU/JAN/011 शा.का. जनक जमानती (यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति (यों ) का नाम एवं जमानती (यों ) यों	1222	2001  गेज्य – तुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट इस कुमार एच यादव, शमिला यादव – पता म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. – 1308, भारत थोज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा न्द्र हिवेदी, सुन्नता कुमारी, पता । गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, –110045  गोज्य – -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गान्त कुमार, काजल कुमार केशरी, पता । ए 1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, न्ली-110085 थोज्य – पलैट नं. 1473, 3सरा तल, पॉकेट जीएच-1, रर नाथ पण्डेय तथा रानी कुमारी, पता । ए यू बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, ली-110008	दी.एस.नं. 100/2, चाः 16-06-21 88,62, बासठ हुउ  डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती  1-122001 16-06-21 18,53 तिरेपन ह	। जार एक से बाइस एवं अंट्राजय से मात्र) 17-06-2021 तक गई-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक 3.प. 201310 99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी गिन सी निन्यानवे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक इजार तीन सौ आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक दिल्ली-110085 2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक शिस हजार एक सौ तिरेपन एवं छब्बीस सेने मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक 322 जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N जमानती बंधक 325 N जमानती बंधक जमानती व्यवक ज	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्रि(सों) का नाम एवं पता सम्प्रति (सों) का नाम एवं पता सम्प्रति (सों): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617 : शा.का. पीतमपुरा श्रि(सों) का नाम एवं पता सम्प्रति (सों) का नाम एवं पता साम्प्रति (सों) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म. नं. 124, रूम मं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टांबर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, क्लिय दत्त चीहान तथा सुनीता चीहान, पता : बी-447, घरोली एक्सटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - वित्र की, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट वीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म. नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी पलैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 1100६ चित्रच कुमार सीरत तथा रंजीत सीरन, पता : म. नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बल्लाजीत नगर, इंदिल्ली-110008 : अप्रयोज्य - कि कोडी रंग पुर, पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-11000 तथा 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110037 : अप्रयोज्य -	08-अप्रैल-21 गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21 , हरियाणा, एसअ 08-अप्रैल-21 88 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067, या.का. पीतमपुरा तथा जिसका शकांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067 व्यापता (वि.) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वेखक सम्पत्ति (वाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्वीर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : नं. 3 बसाई, एन्कलंव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, ज्ञानकपुरी जानाती (वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य-वंधक सम्पत्ति (वाँ) : वी1501,15, टाँवर वाँ एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से भिवाई, हरियाणा,-301019  297 HOU/JAN/ 0216/265268 : ज्ञाका जनकपुरी जानात्ति (वाँ) : वी1501,15, टाँवर वाँ एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाई, हरियाणा,-301019  298 HOU/JAN/ 0216/265268 : ज्ञाका जनकपुरी जानात्ति (वाँ) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110087, शा.का. जनकपुरी रावं रंजन तथा शिम्रा सिंह, 33,7525 / ।,ब्लॉक नं. 412, वे 14-05-21 शा.का. जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 बी, हारका, दिल्ली-110075 HOU/GUR/ 1015/246717 : ज्ञाका, गुरुग्राम	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तेरह हजार पाँच सी अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अटहत्तर हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सी छियासट हजार दो सी छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति (यों ) : मः 309 HOU/JAN/ 061 शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : 904 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : डी. 311 HOU/JAN/ 011 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) : डी. 311 HOU/JAN/ 011 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति (यों ) का नाम एवं वंधक सम्पति (यों ) का नाम एवं वं	1222   स्वि पता : अप्रयो यू डोर नं. 245, पु 605001   स्वि पता : अप्रयो स्व पता : अप्रयो त.नं. 192, ब्लॉक वं 18/546312   हरेन्न हम्प्री : अप्रयो प्र4.0, 9, टॉवर ए-: 7/ 466964   प्रता प्र4.0, 9, टॉवर ए-: 7/ 466964   प्रता प्रव पता : अप्रयो प्र4. डी. ए. एलआईजी प् 1/2/ दिल्ल वि पता : अप्रयो त.डी. ए. एलआईजी प 19/631166   अस- कमुरी   डिल्ल दिल्ल वि पता : अप्रयो तर्व पता : अप्रयो	2001  गेज्य - रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट तश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव - पता म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र 1308, भारत थोज्य - बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड न्द्र हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आरजेडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राटण्ड फ्लोर, मडावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, -110045 गोज्य8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गांच कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, रली-110085 थोज्य - पलैट नं। 1473, उसरा तल, पॉकट जीएच-1, रर नाथ पाण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ए र्, बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, रली-110008	दी.एस.नं. 100/2, चाः 16-06-21 88,62, बासठ हुउ  डा, गौतम बुद्ध नगर, उ  16-06-21 24,89,39 हजार ती  1-122001 18,53 तिरेपन इ  1, सेक्टर 28, रोहिणी, 1 08-04-21 र्सं, व्यालं	। उजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य सेंसे मात्र) 17-06-2021 तक  ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट  2,836.21/- (रुपये अंट्रट्रासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  5.प्र. 201310  99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी तेन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,308.19/- (रुपये चौबीस लाख नवासी तेन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  देल्ली-110085  2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक सौ तरेपन एवं छब्बीस से मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक अवानती वंधक जिल्ला के विकास के वि	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी गी. का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): यी 63, व्ली NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): पतिटें नं. 17 HOU/JAN/ 0616/294442, HOU/JAN/ 0716/300056: शा.का. जनकपुरी श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): व03, 4, 2ो लीला- गुज़ाम हरियाणा- प्रज़ान हरियाणा- प्रजाल- प्रज़ान हरियाणा- प्रजाल- प्रजाल- प्रत्याला सम्पत्ति(यों) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विद्यार - 2, निकट हुन्मान मन्दिर, गुरुधाम, हिराणा-12001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टांबर डी, द रोजीलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घराँली एक्सटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विद्यार डी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य - व्यांक, विद्यार से किंदि के साम के सिंप के प्रयोज्य ने विद्यार से सिंप के साम के सिंप के साम के सिंप के साम के सिंप	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  18- 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैर्तिस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैर्तीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं आइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन दो सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इक्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाडिसंग सेक्टर 14, ग्राम- रायिसका,
HOU/PTP/   1119/757831   सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067   ग्रामती(यों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य   अग्रयाज्य   अग्रयोज्य   अग्रयाज्य	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छ: सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  रु. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासट हजार दो सौ छ: एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिचेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : म.:  309 HOU/JAN/ 061: शा.का. जनक सम्पति( यों ) : का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : की. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : की. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : की. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति( यों ) : की. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति( यों ) : की. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पत्ति( यों ) का नाम एवं वंधक सम्पत्ति ( यों )	122	2001  गेज्य – तुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट इस कुमार एच यादव, शमिला यादव – पता म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. – 1308, भारत थोज्य – बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा न्द्र हिवेदी, सुन्नता कुमारी, पता । गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, –110045  गोज्य – -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गान्त कुमार, काजल कुमार केशरी, पता । ए 1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, न्ली-110085 थोज्य – पलैट नं. 1473, 3सरा तल, पॉकेट जीएच-1, रर नाथ पण्डेय तथा रानी कुमारी, पता । ए यू बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, ली-110008	दी.एस.नं. 100/2, वा 16-06-21 88,62, बासट हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती 1-122001 16-06-21 18,53 तिरेपन है 1, सेक्टर 28, रोहिणी, र्र 08-04-21 रु. 5142 सौ बयार्ल प्रै	। उजार एक सा बाइस एव जर्दानाय सेसे मात्र) 17-06-2021 तक ।डं-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट इ.836.21/- (रुपये अट्टासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ. 201310 अप सी कि सेसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ. 201310 अप सी कि सेसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ. 201310 अप सेसे मात्र) 31-03-2021 तक ।इ. 201310 अप सेसे मात्र अप सेसेस मात्र अप सेस मात्र अप सेसेस मात्र अप सेसेस मात्र अप सेसेस मात्र अप सेसेस मात्र अप सेस मात	बंधक 322   जमानती बंधक 323   जमानती बंधक 325   N जमानती बंधक 325   N जमानती बंधक 326   F जमानती बंधक संस्ता 327   F जमानती 327   F जमा	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी गी. का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): यी 63, व्ली NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): पतिटें नं. 17 HOU/JAN/ 0616/294442, HOU/JAN/ 0716/300056: शा.का. जनकपुरी श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): व03, 4, 2ो लीला- गुज़ाम हरियाणा- प्रज़ान हरियाणा- प्रजाल- प्रज़ान हरियाणा- प्रजाल- प्रजाल- प्रत्याला सम्पत्ति(यों) का नाम एवं पता	भ, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टॉवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रू.म. नं. 12, अशोक विद्यात्र : , निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिरायाप्त 122001 तथा 47, कुप्रमोली उर्फ वक्षशी गाँव, चनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टॉवर डी, द रोजेलिया अफोडॅबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एक्सर्टेशन, ब्लॉक-बी, राजचीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - वित्त चीट, हाइटेक अफोडॅबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63बी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 1100 दिवन कुमार सीरन तथा र्जीत सीरन, पता : म.नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, खलजीत नगर, गई दिल्ली-110008 : अप्रयोज्य - कुप्त, सेक्टर-31-32ए, गुरुग्राम, हरियाणा, 122001 विश्वन सिंह तथा तुलसी बिष्ट, पता : 619, सी ब्लॉक, मिलक पुर कोही रंग पुर, पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा हाइसिंग - कुष्णा हाउसिंग 2011 से जुमार तिवारी तथा पुजा कुमारी, पता खसरा नं. 2013 स्वा कुमार तिवारी तथा पुजा कुमारी, पता खसरा नं. 2152 अमर कॉलोनी,प्लॉट नं. 18ए एवं 18 बी, नोगलोई,	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  18- 08-अप्रैल-21	र. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001      र. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      र. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक      प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायिसका,     र. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पोच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली−110067 जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति थाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्सीर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : शा.का. जनकपुरी जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति थाँ) : वी1501,15, टाँवर जी, पुल्याम, हरियाणा−122001, शा.का. जनकपुरी जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति थाँ) : वी1501,15, टाँवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से िमबाई, हरियाणा, 301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : शा.का. जनकपुरी जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति थाँ) : पलैट नं. 416, असरा तल ब्लॉक जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली−110087, शा.का. जनकपुरी जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति थाँ) : पलैट नं. 416, असरा तल ब्लॉक जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली−110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697, : नं. 1296, एमरात, मरकट, औमान तथा 3032, 8, सोलोमन शा.का. जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 बी, हारका, दिल्ली−110075 HOU/GUR/ 1015/246717 : शा.का. गुरुग्राम जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य वंधक सम्पत्ति चाँ) : 3004, 3,टाँवर ईं5, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाउसिंग – कृष्णा हाउसिंग स्कीम (सर्विपका, सोहना, जिला) गुरुग्राम हरियाणा−122001 299 HOU/JAN/ 1218/627159 : रोलिट विनावक, सेक्टर 15, गुरुग्राम, हरियाणा−122001	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  र. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तैरह हजार पाँच सी अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  र. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अठहत्तर हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  र. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासट हजार दो सौ छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-  र. 23,40,306.95 (रुपये तेईस लाख चालीस हजार तीन सौ छः एवं पिचानबे पैसे	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) का नाम एवं वंधक सम्पति( यों )	122	2001  गेज्य –  ग्राना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट  इश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता ।  म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–  1308, भारत  गेज्य –  बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड  न्द्र द्विवेदी, सुन्नता कुमारी, पता : आर.जेडडी ।  गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर फलेव, पालम गाँव, दिल्ली, –110045  गेज्य –  -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा—  गान कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए ।  १४५ प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी,  न्ती–110085  गेज्य –  एतैट नं. 1473, 3सरा तल, पंकिट जीएच–1,  गर, नाथ पाण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ०  ए, बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर,  ली–110008  गेज्य  तल, ब्लॉक 33, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली–  शीष बजाज तथा लता बजाज–पता : सी 1	दी.एस.नं. 100/2, वा 16-06-21 88,62, बासट हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती 1-122001 16-06-21 18,53 तिरेपन है 1, सेक्टर 28, रोहिणी, र्र 08-04-21 रु. 5142 सौ बयार्ल प्रै	। उजार एक सा बाइस एय जर्दानाय से से मात्र) 17-06-2021 तक  ग्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट  ,836.21/- (रुपये अट्टासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3.प. 201310  99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानवे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,308.19/- (रुपये जजारह लाख हजार तीन सी आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  दिल्ली-110085 2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक शिस हजार एक सी तिरेपन एवं छब्बीस रेसे मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक 322   जमानती बंधक 323   जमानती बंधक 325   N   जमानती बंधक 325   F   जमानती बंधक देशक 326   F   F   जमानती बंधक सेहिना, 327   F	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी गी. का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): यी 63, व्ली NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): पतिटें नं. 17 HOU/JAN/ 0616/294442, HOU/JAN/ 0716/300056: शा.का. जनकपुरी श्री(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति(यों): व03, 4, 2ो लीला- गुज़ाम हरियाणा- प्रज़ान हरियाणा- प्रजाल- प्रज़ान हरियाणा- प्रजाल- प्रजाल- प्रत्याला सम्पत्ति(यों) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु आंझा तथा ओकला नन्द आंझा, पता : म. नं. 124, रूम नं. 1,2, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुग्राम, हिरायणा-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टांबर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, क्रिय दत्त चीहान तथा सुनीता चीहान, पता : बी-447, घरोली एक्सटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विंत की, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट चीएक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म. नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी पलैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11000 विंत्रच कुमार सीरत तथा रंजीत सीरत, पता : म. नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बल्लीत नगर, इंदिल्ली-110008 : अप्रयोज्य - कि सीव, प्रता सुलसी बिल्ट, पता : 619, सी ब्लॉक, मिलक पुर कोही रंग पुर, पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वथा 619 - सी ब्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-11001 तथा 619 - सी ब्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-11001 तथा 619 - सी ब्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110037 : अप्रयोज्य - व्रत्य एफ, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाइसिंग - कृष्णा हाइसिंग 2001 में राजेश कुमार तिवारी तथा पुजा कुमारी, पता खसरा नं. 1552 असर कॉलोनी, एलॉट नं. 180 एथं 18 बी, नंगलोई, दिल्ली-110041	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  18- 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस हजार चार सी पिचहतर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इकहरत पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाडसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067 जमानती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति थों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योग (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : नो. 3 बसाई, ए-कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, ज्यातती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति थों) : बी1501,15, टॉवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाड़ी, हरियाणा,-301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : ज्यात जनकपुरी ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्यातती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति थों) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 परिचम विहार, दिल्ली-110087, शा.का. जनकपुरी जिल्ला ने पत्ते : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति थों) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 परिचम विहार, दिल्ली-110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697, : ने. 1296, एमरात, मस्कट, औमान तथा 3032, 8, सोलोमन शा.का. जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 जी, हारका, दिल्ली-110075 401-1016/246717 : ज्ञाका, गुरुग्राम एवं पता : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति (चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम प्रवंपता अगर्योज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) वा नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम हित्याणा-122001 299 HOU/JAN/ 1218/627159 : स्तान हित्याणा-122001	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छ: सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छ: सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  रु. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासट हजार दो सौ छ: एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-	जमानती( यों ) का नाम एवं वंधक सम्पत्ति (यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवंधक सम्पत्ति (यों ) : म.: 309 HOU/JAN/ 061 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवंधक सम्पत्ति (यों ) : शी. का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवंधक सम्पत्ति (यों ) : शी. जा. जनक जमानती( यों ) का नाम एवंधक सम्पत्ति (यों ) : शी. 311 HOU/JAN/ 011 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवंधक सम्पत्ति (यों ) : प्रते अपनित्ति (यों ) : प्रते अपनि	122	2001  गेज्य – तुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट्र गः होर्स हेर्स होर नं. 130, ग्रेटर नोएडा, उ.प वी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा न्द्र हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आर.काडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, -110045  गोज्य – -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गांन्य कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, न्ती-110085  गोज्य – प्लैट नं। 1473, 3सरा तल, पॉकेट जीएच-1, गर नाथ पण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ए पू. बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, लिन-110008  गोज्य । तल, ब्लॉक 33, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली- शीष बजाज तथा लता बजाज-पता : सी 1 ए, जैन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	दी.एस.नं. 100/2, वा 16-06-21 88,62, बासट हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती 1-122001 16-06-21 18,53 तिरेपन है 1, सेक्टर 28, रोहिणी, र्र 08-04-21 रु. 5142 सौ बयार्ल प्रै	। उजार एक सो बाइस एवं अंट्राज्य सेंसे मात्र) 17-06-2021 तक ।इं-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अंट्रांसी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ.स. 201310    99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  इ.स. 201310    3,308.19/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  इ.स. योज अंट एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  इ.स. योज अंट एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  इ.स. योज अंट एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  इ.स. योज अंट एवं उन्नीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  इ.स. योज अंट एवं योज मिलियन एक  इ.स. योज अंट योज योज अंट य	जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N जमानती बंधक 325 N जमानती बंधक 325 F H जमानती बंधक 327 F	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी शा.का. पीतमपुरा सम्पत्ति (याँ): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा शा.का. जनकपुरी शा.का.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विद्यार ट्रानान मन्दिर, गुरुधाम, हिराणा—12001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य — टांबर डी, द रोजीलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घराँली एक्सटेंशन, व्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य — विद्यार डी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी, व्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — व्यांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — 000, सेक्टर-31-32ए, गुरुधाम, हरियाणा, 122001 विश्वम तिह तथा तुलती विष्ट, पता : 619, सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा एक्स एक्स होतीन, प्लॉट नं. 18ए एवं 18 बी, नांगलोई, दिल्ली-110041 : अप्रयोज्य — -4, ओमेक्स शुभांगन, सेक्टर 4ए, बहाडुरगढ़ जिला इज्झर, हिर्ली-1041	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  14-मई-21  रस्कीम (होल्ड), 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आठ सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आठ सी तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाडसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पोच सी छियालीस हजार नी सी बासठ एवं चीरानबे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295   HOU/PTP/   1119/757831 : सी उर्वा तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067   शा.का. पीतमपुरा   शा.का. पातमपुरा   शा.का. पा	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  ह. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तेरह हजार पाँच सी अट्डानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  ह. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अट्डान हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड (रुपये दो मिलियन सात सी छियासठ हजार दो सी छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-  हाल्ड (रुपये तेईस लाख चालीस हजार तीन सी छः एवं पिचानबे पैसे मात्र) 16.06.2021	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : नः 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : नः 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : डी. 311 HOU/JAN/ 011: शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : वी. 311 HOU/JAN/ 011: शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : वी. 312 HOU/JAN/ 0119 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : पत्र वीधक सम्पति( यों ) : यों	122	2001  गेज्य – तुराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट्र गः होर्स हेर्स होर नं. 130, ग्रेटर नोएडा, उ.प वी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा न्द्र हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता : आर.काडडी 1 गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, -110045  गोज्य – -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- गांन्य कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, न्ती-110085  गोज्य – प्लैट नं। 1473, 3सरा तल, पॉकेट जीएच-1, गर नाथ पण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ए पू. बाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, लिन-110008  गोज्य । तल, ब्लॉक 33, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली- शीष बजाज तथा लता बजाज-पता : सी 1 ए, जैन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	दी.एस.नं. 100/2, वा: 16-06-21 88,62, वासट हुउ डा, गीतम बुद्ध नगर, उ 16-06-21 24,89,39 हजार ती 16-06-21 18,53 तिरेपन ह 1, सेक्टर 28, रोहिणी, f 08-04-21 रु. 5142 सी वयार्ल पै -110008 14-मई-21 रु. 1534 तीन सी छ	। उजार एक सो बाइस एय अंट्राजय सेसे मात्र) 17-06-2021 तक ।इं-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट ,836.21/- (रुपये अंट्रासी लाख जार आठ सी छतीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ.स. 201310 ,99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ.स. 201310 ,16-06-2021 तक ।इ.स. येसे मात्र) 16-06-2021 तक ।इ.स. येसे मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक उ  322  जमानती बंधक 323  जमानती बंधक 324   N  जमानती बंधक 325   N  जमानती बंधक 325   R  जमानती बंधक 327   R  जमानती जमानती बंधक 327   R	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): वी 63, व्लां NHL/PTP/ 0417/376815: शा.का. पीतमपुरा ति(याँ) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): पलैट नं. 17 HOU/JAN/ 0616/294442, HOU/JAN/ 0716/300056: शा.का. जनकपुरी शि. याँ) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): 4003, 4, टां जिला— गुरुग्राम हरियाणा—12 HOU/PTP/ 0418/512696: शा.का. पीतमपुरा ति(याँ) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): वा नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): वा नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): वा नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टाँवर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हनुमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा-12001 तथा 47, कुगमीली उर्फ वश्यो गाँव, चनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टाँवर डी, द रोजेलिया अफोडॅबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घरौली एकसटेंशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - चित्र चीट, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63बी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य - कि बीबी, एलआईजी फ्लैट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य - कि बीबी, पलआईजी प्लंट्स शालीमार बाग, हिल्ली, 11000 विश्वन सिंह तथा तुलसी बिच्ट, पता : 619, सी ब्लॉक, मिलक पुर कोही रंग पुर, पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी ब्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110037 : अप्रयोज्य - कि अप्रयोज्य - कि बीकी, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110037 : अप्रयोज्य - क्या अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग - कृष्णा हाडसिंग 2001 से उपरोज्य - क्या अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग - कृष्णा हाडसिंग 2001 से उपरोज्य - क्या सुजा कुमार तिवारी तथा पुजा कुमारी, पता खसरा नं. 2152 अमर कॉलोनी,प्लॉट नं. 18ए एवं 18 बी, नोगलोई, दिल्ली-110041 : अप्रयोज्य - 4, ओमेक्स सुभांगन, सेक्टर 4ए, बहादुराइ, जिला इन्ड्सर, हरिंश शिखर सिंह, श्वेता सिंह, पता : म.नं. 4, प्रथम तल,	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  14-मई-21  स्कीम (होल्ड), 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस एवं सत्तर पंते मात्र) 31-03-2021 तक  हजार चार सी पिचहतर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  असएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  हजार इक्यासी एवं छत्तीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  हजार दो सी बावन एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  इस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका, हजार वी सी बावन एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  स्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका, हजार वी सी आत्र- एवं सी खासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295 HOU/PTP/ 1119/757831 : साज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160 08-04-21 सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली-110067 जमानती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति थों) : 1503.0, 15.0, टॉवर जी, ग्रैंड्योग (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल 296 HOU/JAN/ 0519/701578 : नो. 3 बसाई, ए-कलेव फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, ज्यातती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य बंधक सम्पत्ति थों) : बी1501,15, टॉवर जी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाड़ी, हरियाणा,-301019 297 HOU/JAN/ 0216/265268 : ज्यात जनकपुरी ज्योति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक 08-04-21 ज्यातती(चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति थों) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 परिचम विहार, दिल्ली-110087, शा.का. जनकपुरी जिल्ला ने पत्ते : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति थों) : पलैट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएच-8 परिचम विहार, दिल्ली-110063 298 HOU/JAN/ 0616/293697, : ने. 1296, एमरात, मस्कट, औमान तथा 3032, 8, सोलोमन शा.का. जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 जी, हारका, दिल्ली-110075 401-1016/246717 : ज्ञाका, गुरुग्राम एवं पता : अग्रयोज्य - बंधक सम्पत्ति (चों) का नाम एवं पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम प्रवंपता अगर्योज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) वा नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) का नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम नाम पर्व पता : अग्रयोज्य - वंधक सम्पत्ति (चों) नाम हित्याणा-122001 299 HOU/JAN/ 1218/627159 : स्तान हित्याणा-122001	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सौ तेरह हजार पाँच सौ अद्गानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान., रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छः सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  रु. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासड हजार दो सौ छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-  रु. 23,40,306.95 (रुपये तेईस लाख चालीस हजार तीन सौ छः एवं पिचानबे पैसे मात्र) 16.06.2021	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : मः 309 HOU/JAN/ 061: शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : वीं विकास सम्पति( यों ) : वीं विकास सम्पत्ति( यों ) : वीं वीं विकास सम्पत्ति( यों ) : वीं विकास सम्पत्ति( यों ) : वीं	122	2001  योज्य –  रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट  रूरा कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1  म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–  1308, भारत  योज्य –  बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड  न्द्र हिवेदी, सुन्नता कुमारी, पता : आरजेडडी 1  गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045  पोज्य –  -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा-  ात्त कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1  245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, ली—110085  योज्य –  प्रत नाथ पाण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ए 1  रूर वाथा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, लि—110008  योज्य –  स्ता तल, ब्लॉक 33, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली—  शीष बजाज तथा लता बजाज–पता : सी 1  ए, जैन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली—110059  गोज्य –  एय, स्काईटेक मैट्रोट, सेक्टर 76 नोएडा, उ.	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21 88,62, बासठ हव  डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21 24,89,39 हजार ती  1-122001 16-06-21 18,53 तिरंपन ह  1, सेक्टर 28, रोहिणी, f 08-04-21 रू. 5142 सौ वयाली पै -110008 14-मई-21 रू. 1534 तीन सौ छ पै :प्र201301 08-अफ्रैल- रू. 43.	। उजार एक सो बाइस एय जेंद्राजय सेसे मात्र) 17-06-2021 तक  ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट  2,836.21/- (रुपये अट्डासी लाख जार आठ सौ छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  5.प्र. 201310  99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सौ निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,308.19/- (रुपये अंडारह लाख हजार तीन सौ आठ एवं उन्नीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  दिल्ली-110085  2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक तीस हजार एक सौ तिरेपन एवं छब्बीस सेसे मात्र) 31-03-2021 तक  506424.97/- (रुपये पाँच सिलयन  5: हजार चार सौ चौबीस एवं सत्तानबे सेसे मात्र) 31-03-2021 तक	जमानती बंधक 323 जमानती बंधक 324 N जमानती बंधक 325 N जमानती बंधक 325 F H जमानती बंधक 327 F	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी शि. यों) का नाम एवं पता सम्पत्ति (याँ): 1001, 10, HOU/JAN/ 0816/308071: शा.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी शा.का. पीतमपुरा सम्पत्ति (याँ): 1005,10,2 NHL/PTP/ 0717/406617: शा.का. पीतमपुरा शा.का. जनकपुरी शा.का.का. जनकपुरी शा.का. जनकपुरी	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विद्यार ट्रानान मन्दिर, गुरुधाम, हिराणा—12001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य — टांबर डी, द रोजीलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घराँली एक्सटेंशन, व्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य — विद्यार डी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट दीपक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी, व्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — क्वांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — व्यांबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 : अप्रयोज्य — 000, सेक्टर-31-32ए, गुरुधाम, हरियाणा, 122001 विश्वम तिह तथा तुलती विष्ट, पता : 619, सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 तथा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा 619 - सी व्लॉक, मिलक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-110010 वर्षा एक्स एक्स होतीन, प्लॉट नं. 18ए एवं 18 बी, नांगलोई, दिल्ली-110041 : अप्रयोज्य — -4, ओमेक्स शुभांगन, सेक्टर 4ए, बहाडुरगढ़ जिला इज्झर, हिर्ली-1041	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  14-मई-21  स्कीम (होल्ड), 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सौ तैतीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छलीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इकहरत पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाडसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पोच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानबे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक
295   HOU/PTP/ 1119/757831 : त्राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160   08-04-21   1119/757831 : त्राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160   08-04-21   1119/757831 : त्राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160   08-04-21   119/757831 : त्राज कुमार साझी तथा जेसिका शशांकर, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साबख वेस्ट दिल्ली, -110067   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य क्षांकर सम्पत्ति चाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल   1507/701578 : त्राज जनकपुरी   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   च्यांकर सम्पत्ति चाँ) : वी1501,15, टाँवर वी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाईो, हिरियाणा, -301019   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   ज्यांति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक   08-04-21   जिएच-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, जानकपुरी   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : फलैट नं. 416, असरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110063   14-05-21   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : फलैट नं. 416, असरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110063   14-05-21   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चायिका, सोहना, जिला- गुरुग्राम हरियाणा-122001   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चायिका, सोहना, जिला- गुरुग्राम हरियाणा-122001   चामानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चामानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर-3, द सेरेनास, सेक्टर 56, सोहना, हरियाणा, अप्रयोज्य, हुडा विजानति क्रांति सम्पत्ति चाँ) : उठ००, उटाँवर-3, द सेरेनास, सेक्टर 56, सोहना, हरियाणा, अप्रयोज्य, हुडा विजानति क्रांति सम्पति चाँ। : उठ००, उटाँवर-3, द सेरेनास, सेक्टर	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  र. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तैरह हजार पाँच सी अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान.,  र. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अठड़त्तर हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  र. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छियासट हजार दो सौ छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-  र. 23,40,306.95 (रुपये तेईस लाख चालीस हजार तीन सौ छः एवं पिचानबे पैसे मात्र) 16.06.2021  होटी सेंटर, गुरुग्राम, हरियाणा, -122001  र. 50,57,743.19 (रुपये पचास लाख सत्तावन हजार सात सी तैतालीस एवं	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : नः : 309 HOU/JAN/ 061: शा.का.जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : वं : 310 HOU/JAN/1217 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : डी. 311 HOU/JAN/ 011 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : पं : वं : 312 HOU/JAN/ 0119 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : पं : वं : 312 HOU/JAN/ 0119 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं : 312 HOU/JAN/ 0119 शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं : 312 सम्पति( यों ) : यों : 312 सम्पति( यों ) : 312	1222	2001  गेज्य – रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट्रालश कुमार एच यादव, शर्मिला यादव – पता । म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. – शोऊय – शी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा- न्न्न हिवेदी, सुब्रता कुमारी, पता । गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली, –110045  गोज्य – -१८, सोलरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा- तान कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए । १८४५ प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, ली-110085 योज्य – पत्ती - 1473, उसरा तल, पॉकेट जीएच–1, तर नांय पण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ० ए, वाबा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली- राता, व्लॉक 33, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली- शीष बजाज तथा लता बजाज-पता : सी । ए, जैन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059  गोज्य – एच, रकाईटेक मैट्रोट, सेक्टर 76 नोएडा, उ.' गा सिंह बोरा एवं अंजू बोरा, पता : फरैट   ।एफ. 1, मानसरोवर गार्डन,फेज 2, मेरठ,	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21   88,62, वासट हुउ  डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21   24,89,39 हजार ती  16-06-21   18,53 तिरेपन ह  1, सेक्टर 28, रोहिणी, 14 08-04-21   रू. 5142 सी बयार्ल पै  -110008 14-मई-21   रू. 1534 तीन सी हुई	। उजार एक सा बाइस एवं अट्ठान्य सें मात्र) 17-06-2021 तक  ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट  2,836.21/- (रुपये अट्ठासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,7. 201310  99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,308.19/- (रुपये अटारह लाख हजार तीन सी आठ एवं उन्तीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  दिल्ली-110085  2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक रीस हजार एक सी तिरेपन एवं छब्बीस रेसे मात्र) 31-03-2021 तक  366424.97/- (रुपये पाँच सानवे रेसे मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक   322   जमानती   वंधक   323   जमानती   वंधक   324   N   जमानती   वंधक   325   N   जमानती   वंधक   देशक   देशक   देशक   देशक   देशक   देशक   उपानती   वंधक   देशक   द	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री का नाम एवं पता सम्पत्ति (वाँ) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विद्यार ट्र. निकट हमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा—12001 तथा 47, क्यामीली उर्फ वक्षी गाँव, व्यवस्था गा	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  14-मई-21  रकीम (होल्ड), 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस एवं सत्तर क्यार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इक्तरप पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पाँच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पाँच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 36,44,444.26 (रुपये छत्तीस लाख चीयालीस हजार चार सी चीयालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) 16.06.2021 तक
295 HOU/PTP' 1119/757831 : सी 5वाँ तल बी/पी बी.पी. ग्राम मुनीरका, नई दिल्ली–110067 शा.का. पीतमपुरा तथा अप्रयोज्य बंधक सम्पत्ति वाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिटा/अपो का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिटा/अपो का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिटा/अपो का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिटा/अपो का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति वाँ) : बी1501,15, टाँवर बी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिटा/अपो का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वंधक सम्पत्ति वाँ) : पलेट नं. 416, 3सरा तल ब्लॉक-जीएय-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110087, शा.का. जनकपुरी, तर्वा देवन तथा शिरा सिंह, 33,7525 / 1,ब्लॉक नं. 412, वे 14-05-21 विहार सम्पत्ति वाँ) : उठा अपोर्टमेंट, सेक्टर-19 बी, हारका, दिल्ली-110075 परात्ति का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वां का जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 बी, हारका, दिल्ली-110075 परात्ति का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वां का जनकपुरी, हाइट अपार्टमेंट, सेक्टर-19 बी, हारका, दिल्ली-110075 परात्ति का नाम एवं पता : अप्रयोज्य वां क	सात सौ पैतालीस हजार एक सौ इक्यानवे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  वर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  रू. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सौ तेरह हजार पाँच सौ अट्ठानवे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान., रू. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सौ अटहत्तर हजार छः सौ तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  रू. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सौ छ्यासठ हजार दो सौ छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रू. 23,40,306.95 (रुपये तेईस लाख चालीस हजार तीन सौ छः एवं पिचानवे पैसे मात्र) 16.06.2021  रू. 50,57,743.19 (रुपये पचास लाख	जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : न्यु (मिशन स्ट्रीट), पाण्डियेरी, 308 HOU/PTP/ 0118 शा.का. पीतम एवं बंधक सम्पति( यों ) : मः 309 HOU/JAN/ 061: शा.का. जनक जमानती( यों ) का नाम एवं बंधक सम्पति( यों ) : वीं विकास सम्पति( यों ) : वीं विकास सम्पत्ति( यों ) : वीं वीं विकास सम्पत्ति( यों ) : वीं विकास सम्पत्ति( यों ) : वीं	1222	2001  योज्य –  रूराना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट  रूरा कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1  म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–  1308, भारत  योज्य –  बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड  न्द्र हिवेदी, सुन्नता कुमारी, पता : आरजेडडी 1  गली नं. 4, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, महावीर कलेव, पालम गाँव, दिल्ली,–110045  पोज्य –  -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा-  ात्त कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1  245 प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, ली—110085  योज्य –  प्रत नाथ पाण्डेय तथा रानी कुमारी, पता : ए 1  रूर वाथा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, लि—110008  योज्य –  स्ता तल, ब्लॉक 33, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली—  शीष बजाज तथा लता बजाज–पता : सी 1  ए, जैन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली—110059  गोज्य –  एय, स्काईटेक मैट्रोट, सेक्टर 76 नोएडा, उ.	दी.एस.नं. 100/2, वाः 16-06-21   88,62, वासट हुउ  डा, गीतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21   24,89,39 हजार ती  16-06-21   18,53 तिरेपन ह  1, सेक्टर 28, रोहिणी, 14 08-04-21   रू. 5142 सी बयार्ल पै  -110008 14-मई-21   रू. 1534 तीन सी हुई	। उजार एक सा बाइस एवं अट्ठान्य सें मात्र) 17-06-2021 तक  ार्ड-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट  2,836.21/- (रुपये अट्ठासी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,7. 201310  99.13/- (रुपये चौबीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  3,308.19/- (रुपये अटारह लाख हजार तीन सी आठ एवं उन्तीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक  दिल्ली-110085  2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक रीस हजार एक सी तिरेपन एवं छब्बीस रेसे मात्र) 31-03-2021 तक  366424.97/- (रुपये पाँच सानवे रेसे मात्र) 31-03-2021 तक	बंधक   322   जमानती   वंधक   323   जमानती   वंधक   324   N   जमानती   वंधक   325   N   जमानती   वंधक   देशक   देशक   देशक   देशक   देशक   देशक   उपानती   वंधक   देशक   द	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री का नाम एवं पता सम्पत्ति (वाँ) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजु ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विहार-2, निकट हुनुमान मन्दिर, गुरुग्राम, हिराणा-122001 तथा 47, कुरामीली उर्फ वक्षी गाँव, वनकटा जगदीश, भाटपार रानी, देवरिया, उ.प्र274704 : अप्रयोज्य - टांबर डी, द रोजेलिया अफोडेंबल हाउसिंग, सेक्टर 95 ए, शिव दत्त चौहान तथा सुनीता चौहान, पता : बी-447, घराँली एक्सर्टेशन, ब्लॉक-बी, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली-110096 : अप्रयोज्य - विवाद डी, हाइटेक अफोडेंबल होम्स, सेक्टर-87, फरीदाबाट वीएक चावला तथा दीपिका डोगरा, पता : म.नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110088 : अप्रयोज्य - कबीबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11008 विवाद कुमार सीरन तथा पंजीत सीरन, पता : म.नं. 63वी, ब्लॉक-बीबी, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली-110008 : अप्रयोज्य - कबीबी, एलआईजी फ्लेट्स शालीमार बाग, दिल्ली, 11001 दिव्य कुमार सीरन तथा पंजीत सीरन, पता : म.नं. 1706ए, एचबीसी, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा-12001 तथा टी-536, निकट बुद्धा मन्दिर, बलजीत-गार, नई दिल्ली-110008 : अप्रयोज्य - विवाद सीरन प्राचीत सिंद, पता : 619, सी ब्लॉक, अपरोज्य - विवाद सीरन प्राचीत साम प्राचीत साम प्राचीत साम प्राचीत साम प्राचीत साम कुमार तिवात वा 19- सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-11001त व्या 619 - सी ब्लॉक, मलिक पुर, रंग पुर पहाड़ी, दिल्ली-11001त व्या 619 - सा एक, रहेजा अफोडेंबल युप हाउसिंग - कृष्णा हाउसिंग 201 में राजुर अमार किलानी, प्लॉट नं. 18ए एवं 18 बी, नांगलींई, दिल्ली-110041 : अप्रयोज्य - व्य एफ, रहेजा अफोडेंबल युप हाउसिंग - कृष्णा हाउसिंग - व, ओमेक्स कुमार तिवारी तथा पुजा कुमारी, पता खसरा नं. 2152 अमर कालींनी,प्लॉट नं. 18ए एवं 18 बी, नांगलींई, दिल्ली-110041 : अप्रयोज्य - व, अमेक्सर सह, श्वेता सिह, एता : म.नं. 4, प्रथम तल, एल्लाईजी स्वाप्त पुर, दिल्ली-110062, आपरोज्य - व, कोक्सर सह, हिल्ली-110062, अपरोज्य - व, अमेक्सर सह, हिल्ली सह, एता : म.नं. 4, प्रथम तल, एल्लाईजी, दिल्ली-110062, अपरोक्त दिल्ली-110062, क्रायोज्य - व, कोक्सर सह, हिल्ली-110062, अपरोक्त सा सा सी सा सा सा सी सा सी सा सा सी सा सा सी सी सा सी सी सा सी सी सा सा सी सी सी सा सी सी सी सा सी सी सी सी सी सी स	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  14-मई-21  रकीम (होल्ड), 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस एवं सत्तर क्यार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इक्तरप पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पाँच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पाँच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 36,44,444.26 (रुपये छत्तीस लाख चीयालीस हजार चार सी चीयालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) 16.06.2021 तक
295   HOU/PTP/ 1119/757831 : त्राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160   08-04-21   1119/757831 : त्राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160   08-04-21   1119/757831 : त्राज कुमार माझी तथा जेसिका शशांकर, पता : मकान नं. 160   08-04-21   119/757831 : त्राज कुमार साझी तथा जेसिका शशांकर, प्रजापित महल बुद्ध विहार, मुनीरका साबख वेस्ट दिल्ली, -110067   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य क्षांकर सम्पत्ति चाँ) : 1503.0, 15.0, टाँवर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अल   1507/701578 : त्राज जनकपुरी   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   च्यांकर सम्पत्ति चाँ) : वी1501,15, टाँवर वी एएलएनविक, टेरा कैसल, खसरा नं. 576, 587 से पिवाईो, हिरियाणा, -301019   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   ज्यांति प्रकाश थडानी तथा किरन थडानी, पता : 412 ब्लॉक   08-04-21   जिएच-8, पश्चिम विहार, सहयोगा पीपीटी, दिल्ली-110087, जानकपुरी   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : फलैट नं. 416, असरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110063   14-05-21   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : फलैट नं. 416, असरा तल ब्लॉक-जीएच-8 पश्चिम विहार, दिल्ली-110063   14-05-21   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चायिका, सोहना, जिला- गुरुग्राम हरियाणा-122001   जमानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चायिका, सोहना, जिला- गुरुग्राम हरियाणा-122001   चामानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चामानती(चाँ) का नाम एवं पता : अप्रयोज्य   व्यंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर ईंड, रहेजा अफोडेंबल ग्रुप हाडसिंग   कृष्णा हाडसिंग स्कीम (चंचक सम्पत्ति चाँ) : उठ०४, उटाँवर-3, द सेरेनास, सेक्टर 56, सोहना, हरियाणा, अप्रयोज्य, हुडा विजानति क्रांति सम्पत्ति चाँ) : उठ००, उटाँवर-3, द सेरेनास, सेक्टर 56, सोहना, हरियाणा, अप्रयोज्य, हुडा विजानति क्रांति सम्पति चाँ। : उठ००, उटाँवर-3, द सेरेनास, सेक्टर	सात सी पैतालीस हजार एक सी इक्यानबे एवं चौरासी पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  बर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019  रु. 2613598.29/- (रुपये दो मिलियन छः सी तैरह हजार पाँच सी अट्ठानबे एवं उनतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  590, ग्राम मसीत, जिला अलवर. राजस्थान., रु. 3278603.9/- (रुपये तीन मिलियन दो सी अटहत्तर हजार छः सी तीन एवं नब्बे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  रु. 2766206.33/- (रुपये दो मिलियन सात सी छियासट हजार दो सी छः एवं तैतीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  होल्ड), प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम-  रु. 23,40,306.95 (रुपये तेईस लाख चालीस हजार तीन सी छः एवं पिचानबे पैसे मात्र) 16.06.2021  इटी सेंटर, गुरुग्राम, हरियाणा, -122001  रु. 50,57,743.19 (रुपये पचास लाख सत्तावन हजार सात सी तैतालीस एवं उन्नीस पैसे मात्र) 17.06.2021 तक	जमानती( यों ) का नाम एवं वंधक सम्पति( यों ) स्वा (मिशन स्ट्रीट), पाण्डिजेरी, 308 HOU/PTP/0118 शा.का. पीतम एवं वंधक सम्पति( यों ) का नाम एवं वंधक सामानती( यों ) का नाम एवं वंधक सम्पति( यों ) का नाम एवं वंधक सामानती( यों ) का नामानती( यों ) का नामानती( यों ) का नामानती( यों ) सामानती( यों ) का नामानती( यों ) का नामानती( यों ) का नामानत	1222	2001  गेज्य –  ग्राना डोर नं. 101, आर.एस.नं. 239 पीटी, ट्र  श्च कुमार एच यादव, शर्मिला यादव– पता 1  म.नं. 61 गामा 2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–  1308, भारत  गेज्य –  बी, सेक्टर सिग्मा 1, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएड  न्द्र द्विवेदी, सुन्नता कुमारी, पता : आर.जेडडी 1  गली नं. 4, अपर ग्राडण्ड फ्लोर, महावीर फलेव, पालम गाँव, दिल्ली, –110045  गेज्य –  -8, सोलेरा 2,सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा-  गान कुमार, काजल कुमार केशरी, पता : ए 1  श्व प्रथम तल, सेक्टर 17, रोहिणी, स्ली–110085  गेज्य –  पत्तै ट नं. 1473, 3सरा तल, पॉकेट जीएच–1, सर नाथ पाण्डेच तथा रानी कुमारी, पता : ए 1  गुरु वावा फरीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर, स्ली–110089  गोज्य –  एच, स्काईठ के वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110059  गोज्य –  एच, स्काईट के मैट्रोट, सेक्टर 76 नोएडा, उ.थ  ग्रा सिंह बोरा एवं अंजू बोरा, पता : एलैट 0  एफ. 1, मानसरोवर गार्डन,फेज 2, मेरठ, स.–250103	दी.एस.नं. 100/2, चाः 16-06-21   88,62, वासट हुउ  डा, गौतम बुद्ध नगर, उ. 16-06-21   24,89,39 हजार ती  16-06-21   18,53 तिरेपन ह  1, सेक्टर 28, रोहिणी, 14 08-04-21   रू. 5142 सी बयार्ल पै  -110008 14-मई-21   रू. 1534 तीन सी हुई	। उजार एक सा बाइस एवं अंट्राज्य सेंसे मात्र) 17-06-2021 तक ।इं-सी, ब्लॉक नं. 20, कैथेड्रल स्ट्रीट इ.836.21/- (रुपये अंट्रांसी लाख जार आठ सी छत्तीस एवं इक्कीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक इ.प. 201310 99.13/- (रुपये चौवीस लाख नवासी ोन सी निन्यानबे एवं तेरह पैसे मात्र) 16-06-2021 तक इजार तीन सी आठ एवं उन्तीस पैसे मात्र) 16-06-2021 तक दिल्ली-110085 2153.26/- (रुपये पाँच मिलियन एक सी तिरेपन एवं छब्बीस सेंसे मात्र) 31-03-2021 तक इजार चार सी चौबीस एवं सत्तानबे सेंसे मात्र) 31-03-2021 तक सात्र सेंसे मात्र) 31-03-2021 तक सात्र सेंसे मात्र) 31-03-2021 तक	विध्यक र 322 जमानती विध्यक 323 जमानती विध्यक 324 N जमानती विध्यक 325 N जमानती विध्यक 327 H जमानती विध्यक र 328 जमानती	HOU/JAN/ 0717/409409: शा.का. जनकपुरी श्री का नाम एवं पता सम्पत्ति (वाँ) का नाम एवं पता	4, प्लॉट नं. जीएच01 ए, 17वाँ तल, टांबर सीवी। सुपरटेक के संजू ओझा तथा ओकला नन्द ओझा, पता : म.नं. 124, रूम नं. 12, अशोक विद्यार ट्र. निकट हमान मन्दिर, गुरुआम, हिराणा—12001 तथा 47, क्यामीली उर्फ वक्षी गाँव, व्यवस्था गा	08-अप्रैल-21  गुरुग्राम, हरियाणा 08-अप्रैल-21  , हरियाणा, एसउ 08-अप्रैल-21  14-मई-21  रकीम (होल्ड), 08-अप्रैल-21	ह. 2147833.7/- (रुपये दो मिलियन एक सी सैतालीस हजार आट सी तैतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  1, 122001  ह. 833475.68/- (रुपये आट सी तैतीस एवं सत्तर क्यार चार सी पिचहत्तर एवं अइसट पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  आरएस रेजीडेंसी, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 4106081.36/- (रुपये चार मिलियन एक सी छः हजार इक्यासी एवं छ्लीस पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  ह. 1290252.71/- (रुपये एक मिलियन दो सी नब्बे हजार दो सी बावन एवं इक्तरप पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  प्रस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पाँच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 1546962.94/- (रुपये एक मिलियन पाँच सी छियालीस हजार नी सी बासट एवं चीरानवे पैसे मात्र) 31-03-2021 तक  अस्तावित हाउसिंग सेक्टर 14, ग्राम- रायसिका,  ह. 36,44,444.26 (रुपये छत्तीस लाख चीयालीस हजार चार सी चीयालीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) 16.06.2021 तक

गहल मेहरा रिचा श्रीवास्तव पता : बी-054 16-06-21 क 22 84 722 30 (रुपये बार्ट्स लाख चौगसी 314 HOU/PTP/

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि. इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार राज सिंह यादव और मीना यादव को 08.04.2021 की सुचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HHLGRG00127905 की राशि रू.59,76,404.58 /- (रुपए उनसठ लाख छिहत्तर हजार चार सौ चार और अट्ठावन पैसे मात्र) और 31.03.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.07.2021 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान **हजार चार सौ चार और अठ्ठावन पैसे मात्र) 31.03.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनयम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है । अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति अपार्टमेंट नं.एनजीएम-203, बीसवीं मंजिल पर, 244.33 स्के.मी. (2630 स्के.फीट) का मापित सुपर एरिया, जिसमें 200.39 स्के.मी. (2157 स्के.फीट) लगभग का अपार्टमेंट एरिया शामिल है, बिल्डिंग/टॉवर -एम, न्यु टाउन हाइट्स, सेक्टर - 90, डीएलएफ, गुड़गाँव -122001(हरियाणा)2 पार्किंग जगह नं.(1) पीएम 2031 और (2) पीएम 2032, टॉवर/ बिल्डिंग एम में,

दिनांक :23.07.2021 प्राधिकृत अधिकारी स्थान :गुरुग्राम इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

आईवीसी, 2016 के अंतर्गत विक्री सूचना गोयल एग्रीग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापक : श्री अमरेष शुक्ला पंजीकृत कार्यालयः खसरा नंबर 3, केसला गांव, इटारसी, जिला—होशंगाबाद—461111, मध्य प्रदेश, भारत ईमेल : cirp.goelagrigreenfields@gmail.com|फोनः +919425007441 (श्री अमरेष शुक्ला)

**ई— नीलामी** दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री ई—नीलामी की तिथि एवं समय : 12 अगस्त, 2021 को सार्य 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

क्यन्ती की सम्पूर्ण और मंदी में बिक्री गोयल एग्रीग्रीनफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री जो की परिसमापक द्वारा गठित परिसमापन एस्टेट का हिस्सा हैं, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद में इंदौर पीठ के आदेश दिनांकित 18 अगस्त 2020 के द्वारा नियुक्त परिसमापक के कब्जे में हैं। संपत्तियों की बिक्री ई—नीलामी मंच https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

आस्तिया				
भूमि				
केसला गांव में फ्रीहोल्ड भूमि—तेहसील— इटारसी, जिला—होशंगाबाद,				
ताकू वन डिपो के पास, एनएच 69 (कुल क्षेत्रफल 77.92 एकड़)				
कारखाने की इमारत		बी		
	रखाना भवन, ताकू वन फेपो के पास, एनएच 69,	""		
तहसील— इटारसी, जिला—हो	शंगाबाद, मध्य प्रर्देश — 461111			
प्लांट और मशीनरी		सी		
केसला गांव में प्लांट और मशीनरी , ताकू वन फेपो के पास, एनएच 69,				
तहसील— इटारसी, जिला—होशंगाबाद, मध्य प्रदेश—461111				
वर्कशॉप				
केसला गांव में वर्कशॉप, ताकू वन फेपो के पास, एनएच 69, तहसील— इटारसी,				
जिला—होशंगाबाद, मध्य प्रदेश — 461111				
बिक्री का तरीका एक मंदी बिक्री में				
आरक्षित मूल्य (रू.में)	आरक्षित मूल्य (रू.में) 19,19,49,431/-			
<b>ई</b> एमडी राशि (रू.में) 1,91,94,943/-				

वृद्धि शील मूल्य (रू.में) 1000000/-

**स्थान** : भोपाल

**ई—नीलामी के नियम एवं शर्ते इस प्रकार हैं:** 1. ई—नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर के माध्यम सें 'जैसी है जहां है', ''जो है यहीं है', ''जो कुछ भी है'' और ''उपचार रहित'' आधार प

आयोजित की जायेगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली जमा करने से पहले, अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए औ

अपने स्वयं के खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

3. पूर्ण ई—नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें संपत्ति का विवरण, ऑनलाइन शामिल है ई—नीलामी बोली प्रपन्न, घोषणा और वचन पन्न, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शाँ वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। ई—नीलामी विवरण के लिए, श्री प्रवीण कुमार थेवर से 9722778828, praveen.thevar@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net पर संपर्क करें या परिसमापक को। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर जाएं और बोली जमा करें।

परिसमापक, गोयल एग्रीग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) आईबीबीआई पंजीकृत सं:11881/IPA-001/IIP-P00120/2017-18/10255 पता: एफ–05, जयदीप कॉम्प्लेक्स, 112, जोन–11, एम.पी. नगर, भोपाल– 462011 ई—में त: cipr.goelagrigreenfields@gmail.com सम्पर्क नं.:+919425007441 (अमरेष शुक्ला)

अमरेष शुक्ला



राजनादना मटल लिमटड पंजी. कार्यालय : ३ई—17, बी.पी.एन.आई.टी. फरीदाबाद—121001 हरियाणा (इंडिया) निगमित कार्यालय : व्हॉट नं. ३४४. सेक्टर ३ फेज ।।, आईएमटी बवल—123501 हरियाणा (इंडिया Phone: 01284-264194 | Email:cfo@rajnandinimetal.com Website:www.rajnandinimetal.com | CIN: L51109HR2010PLC040255

बोनस इक्विटी शेयर जारी करना

ऊपर दिए गए विषय के संदर्भ में, हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 1:2 अर्थात् प्रत्येक 2 (यो) इक्विटी शेयरों के लिए 1 (एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के अनुपात में "सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट" / "फ्री रिजर्व" के कैपिटलाइजिंग द्वारा बोनस शेयर जारी करने की स्वीकृति दी है। (साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन का विषय)

स्वीकृति दी हैं । (साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन का विषय) बोर्ड के आदेशानुसार राजनंदिनी मेटल लिमिटेड के लिए हस्ता. / — हे तर मा शर्म दिनांक : 26 जुलाई, 2021 स्थान : बवल डीआईएन : 02925990

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनास्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण बकाया राशि एन.पी.ए.की (बी) तारीख (सी) (रू.) (डी) 1 कर्ज खाता क्र.HLAPLAJ00238682 ₹.3,88,74,452 /-तल मंजिल, मध्य भाग, पीछे∕पीछला 17.04.2021 . पाल मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट भाग,पहली मंजिल, मध्य भाग और दुसरी (रूपये तीन करोड़ अट्टासी मंजिल रूफ राइटस के साथ, संपत्ति/प्लॉट लाख चौहत्तर हजार चार सं ां.161ए पर बना, ब्लॉक -जे1, राजौरी बावन मात्र) 17.04.2021 2. ऋषीप्रीत सिंह सचदेवा (पाल मोहन गार्डन, नई -दिल्ली – 110045 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक 3. गगनप्रीत सिंह सचदेवा (पाल मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशव 4. हरप्रीत सिंह सचदेवा 5. कवल सचदेवा 7.04.2021 2 कर्ज खाता क्र.HLAPLAJ00262641 तल मंजिल, मध्य भाग, पीछे/पीछला 板.3,02,65,115/-।. पाल मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट भाग,पहली मंजिल, मध्य भाग और दसरी (रूपये तीन करोड़ दो लाख मंजिल रूफ राइटस के साथ, संपत्ति/प्लॉट पैसठ हजार एक सौ पंदह नं.161ए पर बना, ब्लॉक -जे1, राजौरी 2. ऋषीप्रीत सिंह सचदेवा (पाल मोहन मात्र) 17.04.2021 के अनुसा गार्डन, नई -दिल्ली – 110045 इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक 3. गगनप्रीत सिंह सचदेवा (पाल मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक 4. हरप्रीत सिंह सचदेवा 5. कवल सचदेवा 3 कर्ज खाता क्र. फ्लैट /युनिट नं. -406, चौथी मंजिल, ब्लॉक -ई, आदित्य अर्बन होम्स, गाँव 板.13,20,948.55/-(रूपये तेरह लाख बीस हजार HHLNOI00241991 1.अनुज तोमर उर्फ अनुज कुमार तोमर शाहपुर बम्हेता, एनएच-24, परगना दसना नौ सौ अड़तालीस और पचप पैसे मात्र) 31.03.2021 के गाज़ियाबाद- 201001. उत्तर प्रदेश प्लॉट नं.एडी -85 का ईस्टर्न हाफ पोरशन, 19.04.2021 板.24,32,880 /-HHLDMT00462789 अपर तल मंजिल, ब्लॉक -एडी, टैगोर (रूपये चौबीस लाख 1.संदीप भाटिया (फ्लावर फैंटेसी के गार्डन, नर्ड दिल्ली -110027 बत्तीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) 19.04.2021 के अनुसार 2.जीनु भाटिय 5 कर्ज खाता क्र. युनिट नं.जी-1803, ब्लॉक जी , अठारहवीं 31.03.2021 板.70,28,991.67 /-मंजिल, प्रोजेक्ट पैन ओएसिस जीएच-01. HHLNOI00205215 (रूपये सत्तर लाख 1.कुंवर खालिद मलिक अठ्ठाईस हजार नौ सौ इक्यान सेक्टर 70, नोएडा -201301, उत्तर प्रदेश 2. सलमा मलिक और सडसठ पैसे मात्र)

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की

धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

31.03.2021 के अनुसार

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सिहत ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफंसी कानून की धारा 13 की उप -धारा है के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्यों क्रेडिटर द्वारा तिक एगए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में लिए पात्र नहीं हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है। प्राधिकृत अधिकारी स्थान:दिल्ली/गाज़ियाबाद/नोएडा(उत्तर प्रदेश) कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड अपोलो पाइप्स लिमिटेड

साआइएन: L65999DL 1985PL.C022723 पंजीकृत कार्यालयः 37, इरगोविंव एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली—110092 कारपोरेट कार्यालयः प्लाट नं. ए—140, सेक्टर—138, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 ईमेल: compliance@apollopipes.com, वेबसाइटः www.apollopipes.com

### 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (ह लाखों में प्रति शेवर अर्जन बाटा को छोड़कर चालू तिमाही समरूपी तिमाही पूर्व वर्ष

	(* ***		
	चालू तिमाही समाप्त	समरूपी तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष समाप्त
विवरण	30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
परिचालनों से कुल आय	13,761.00	9,250.73	51,806.83
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	1,208.14	286.71	6,067.15
(कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व#)			
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	1,208.14	286.71	6,067.15
(विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद#)			
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	875.09	200.07	4,447.43
(विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद#)			
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र	878.77	201.93	4,461.69
आय (कर पश्चात) शामिल]			
इक्विटी शेयर पूंजी	1,310.94	1,310.94	1,310.94
आरक्षित निधि (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में	-	-	33,835.81
दर्शाए अनुसार			
प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रु. 10/- वार्षिकीकृत नहीं तिमाही आंकड़ों के लिए)			
बेसिकः	6.67	1.53	33.93
डायल्यूटेडः	6.67	1.53	33.93
नोटः	•	•	

1. ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विरतृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों और कंपनी की वेबसाइट "www.apollopipes.com" पर उपलब्ध है।

वबसाइट "www.apoilopipes.com" पर उपलब्ध ह। लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन (ऑ) के कारण शुद्ध लाम/हानि, कुल समग्र आय या अन्य किसी संबंधित वित्तीय मद(ऑ) पर प्रभाव फुटनोट के

माध्यम से प्रकट किए जायेंगे।
# — इंड-एएस निग्रामवली / एएस निग्रामवली जो भी लाग हो के अनुपालन में लाम और हानि विवरण में समायोजित विशिष्ट और / या

3. # — इंड—एएस नियामवली / एएस नियमावली, जो भी लागू हो, के अनुपालन में लाम और हानि विवरण में समायोजित विशिष्ट और / या असाधारण मद।
िक्षेत्र अपोलो पाइप्स लिमिटेड

हस्ता./— समीर गुप्ता प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00005209

∏∰ IndusInd Bank

दिनांकः 26 जुलाई, 2021

स्थानः नोएडा

इंडसण्ड बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 2401, जेन. थिम्मय्या रोड, (कंटोनमेंट), पुना—411001 शाखा कार्यालय : संगम कॉम्पलेक्स, ग्राउंड फ्लोर, ऑफ. मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर—302006

मांग सूचना

चूँकी एतद्ब्रारा उल्लेखित उदारकर्ताओं /सह—उधारकर्ताओं ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ( आरएचएफएल) से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। निम्न वर्णित अभिहस्तांकन दस्तावेज के अनुसार, आरएचएफएल ने अंतर्निहित प्रतिभूतियों और अन्य अधिकारों के साथ इंडसण्ड बैंक लिमिटेड के पक्ष में वित्तीय परिसम्पत्तियों को लागू करने सिटेट के पक्ष में वित्तीय परिसम्पत्तियों को लागू करने सिटेट के पक्ष में वित्तीय परिसम्पत्तियों को लागू करने सिटेट के पक्ष में वित्तीय परिसम्पत्तियों को लागू करने सिटेट के पक्ष में वित्तीय कि लागू करने सिटेट के लाग के लागू अपने सिटेट के लिए अधिकृत है। सारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार, इस खाते को सम्बन्धित दिनांकों पर गैर—निष्पादित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उन्हें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अर्थान का साथ परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अर्थान स्वाप्त के प्रधारा 13(12) के नियम 3 के साथ पठित प्राप्त प्रतिभूति केरण के तहत उनके अन्तिम झात पत्ते परिसम्पत्ति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की उपधारा 13(12) के नियम 3 के साथ पठित प्राप्त के सिटेट के स्पर्त के सिटेट के सिटेट के सिटेट के सिटेट के सिटेट के अपने का अपने के स्वाप्त सिटेट के सिटेट के आप के सिटेट के सिटेट के अपने का आहान किया गया है। उल्लेखित स्वाप्त का मुगतान करने का आहान किया गया है। का का के स्वाप्त के स्वाप्त का सिटेट के स्वाप्त करने का आहान किया गया है।

उधारकताआ | बधकताआ सं सूचना प्राप्त हान का दिनाक सं 60 दिना के भातर भुगतान का निर्धारित दिनाक तक राशि आर आकास्मक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर अनुबंध दर पर भविष्य के ब्याज के साथ सूचना में उल्लेखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। उनके अन्तिम ज्ञात पतों पर उन्हें जारी कि गई सूचना असेवित/अप्राप्य कर दिये गये, और इस तरह एतदद्वारा उसी के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित कर रहे हैं।

उधारकर्ता का नाम/पता	सूचना, एनपीए और अभिहस्तांकन दस्तावेज (डीओए) की दिनांक	ऋण और बकाया	प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण
1.शाहजान अली 2. क क सार शाहजान अली 151, नासिरपुर कालन, शाहपुर शीतला, खेरा हरिद्वार, जामा मस्जिद उत्तराखण्ड—249	30 अप्रैल 2021 एनपीए दिनांक : 31 मार्च 2021 डीओए : 25 मार्च 2019	लोन खाता सं. RHAHDEH000069216 (PR00764421) लोन राशि : रू. 14,83,495/— (रुपये चौदह लाख(खों) तैरासी हजार चार सौ पिचानबे मात्र) ब क ा या राशि : रू. 16,97,922/— (रुपये सोलह लाख(खों) सितानबे हजार नौ सौ बाईस मात्र) दिनांक 23 अक्टूबर 2021 तक	संपत्ति धारक मकान प्लॉट सं. 4 पर मापक पूर्व— 41 फुट, पश्चिम—41 फुट, उत्तर—30.5 फुट और दक्षिण में 30.5 फुट जिसका कुल क्षेत्र 1250 वर्ग फुट खसरा सं. 1693जी का भाग, ग्राम अनैकीहेतमपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील औं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249401 में स्थित का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग, सीमांकन प्रकार: पूर्व : अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिम : क्रेता की संपत्ति, उत्तर : अन्य व्यक्ति का प्लॉट और दक्षिण 15 फुट चौड़ा रास्ता।

पूर्वोक्त परिस्थितियों में ये सूचना उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं को दिया जाता है, ताकि इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान किया जा सके, ऐसा न होने पर उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों के खिलाफ इस सूचना के 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके लागू नियमों के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, कोई भी उधारकर्ता प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना,

रूचना में उल्लेखित अपनी प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों में से किसी को बिक्री, पट्टा या अन्य के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा।

स्थान : उत्तराखण्ड दिनांकित : 27 जुलाई 2021

हस्ता./— (प्राधिकृत अधिकारी) इंडसण्ड बैंक लिमिटेड